



प्रत्युष नवबिहार

रांची संस्करण

www.tezrafterlive.com
Email-navbiharjh@gmail.com

रांची, पटना और दिल्ली से प्रकाशित

रांची • शुक्रवार • 20.06.2025 • वर्ष : 15 • अंक : 326 • पृष्ठ : 12 • आमंत्रण मूल्य : ₹ 2 रुपये

एक नजर

इरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से हिला इजराइल

तेल अवीव : इरान और इजराइल के बीच छिड़े सैन्य संघर्ष के सातवें दिन आज दोनों देशों में भारी तबाही की खबरें हैं। इरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से इजराइल हिल गया है। इरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों की नई लहर से कई शहरों पर तेज बमबारी की है। द टाइम्स ऑफ इजराइल अखबार की खबर के अनुसार मिसाइलों की लहर थमने के बाद इजराइल के रक्षामंत्री काटज ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। होलोन में काटज ने तबाही देखकर कहा कि इरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई आधुनिक हितरत हैं। उन्होंने कहा कि इस आदमी को खत्म करना युद्ध के लक्ष्यों के अनुरूप है। अस्पतालों और शहरों को निशाना बनाना ठीक नहीं है। इजराइल ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि इजराइल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने कहा कि आईडीएफ ने इरान के अराक रिफाइनरी, परमाणु हथियार विकास स्थल और दर्जनों अन्य ठिकानों पर हमला किया है। मगर आईडीएफ ने आबाद आबादी और अस्पतालों को निशाना नहीं बनाया है। इरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की है कि निशाना बनाए गए सोरोका मेडिकल सेंटर से मरीजों को देश भर के अन्य अस्पतालों में भेजना शुरू कर दिया गया है।

राहुल गांधी 55 साल के हुए, खरगे सनेत कई नेताओं ने दी जन्मदिन की बधाई

नई दिल्ली : कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव के सी वेणुगोपाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। राहुल गांधी का जन्म 19 जून, 1970 को नयी दिल्ली में हुआ था। वह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की ज्येष्ठ संतान हैं। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा सदस्य और नेता प्रतिपक्ष हैं। खरगे ने सोशल मीडिया मंच ह्वाएक्सब्लू पर लिखा, राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जो चीज आपको अलग करती है वह सविधान के मूल्यों के प्रति आपका अग्रिम समर्पण और उन लाखों लोगों की खातिर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय के प्रति आपका गहरा लगाव है जिनकी आवाजें अक्सर अनसुनी कर दी जाती हैं।

बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती घोटाले में ईडी का उग्र, बिहार, बंगाल, झारखंड में छापा

एजेंसी

पटना : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वर्ष 2023 के बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा भर्ती में कथित घोटाले की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गुरुवार को उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में करीब एक दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी ने बिहार के पटना और नालंदा, झारखंड के रांची, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कम से कम एक दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की जा रही है। ये ठिकाने एजेंट, प्रश्नपत्र लीक कराने वाले गिरोह के सदस्यों और उनके सहयोगियों

आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवन देना हमारी प्रतिबद्धता : हेमन्त सोरेन

प्रत्युष नवबिहार संवाददाता

रांची : सिकल सेल पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इस दिशा में एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए संक्रमितों को बेहतर जीवन देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस बीमारी का असर सिर्फ मरीज को ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को महसूस होता है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन गुरुवार को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस के अवसर पर यूनिसेफ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इस रोग से प्रभावित युवक-युवतियों से सीधा संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने सिकल सेल के प्रति जन जागरूकता फैलाने पर जोर दिया ताकि लोगों के बीच इस बीमारी के प्रति समझ बढ़ सके। उन्होंने कहा कि हम सभी के सामूहिक प्रयासों से ही इस बीमारी का उन्मूलन संभव है।

स्क्रीनिंग बढ़ाने की है जरूरत मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बीमारी की प्रारंभिक पहचान और उपचार सुनिश्चित करने के लिए स्क्रीनिंग को बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि, लोगों को पता ही नहीं होता है कि वे इस बीमारी से पीड़ित हैं। ऐसे में जाने-अनजाने वे इसे अगली पीढ़ी में स्थापित कर सकते हैं। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों का स्क्रीनिंग किया जाना चाहिए और जिन लोगों में इस



बीमारी के लक्षण पाए जाएं, उनकी काउंसलिंग कर जांच दवाईयां और अन्य सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराई जाएं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस बीमारी के निदान की दिशा में यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चों के जन्म के साथ ही उसकी स्क्रीनिंग कराई जाए, ताकि किसी प्रकार की समस्या हो तो उसका इलाज और समाधान हो सके। सिकल सेल से निपटने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रही सरकार मुख्यमंत्री ने कहा कि सिकल सेल से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग और अन्य माध्यमों से कार्य किया जा रहे हैं। इसमें यूनिसेफ जैसी संस्थाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने

के लिए कई कदम उठाए गए हैं। लोगों का हेल्थ प्रोफाइल तैयार किया जा रहा है, ताकि विभिन्न बीमारियों से संक्रमित लोगों की पहचान कर उनका समुचित इलाज किया जा सके। हमारा प्रयास आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवन देना है। हेल्थ प्रोफाइल के डेटा को निरंतर अपडेट करें मुख्यमंत्री ने कहा कि हेल्थ प्रोफाइल के डेटा को एक नियत समय पर अपडेट करते रहना चाहिए। क्योंकि इससे हमें पता चलेंगे कि किस बीमारी के कितने मरीज मिले थे। कितने मरीज का इलाज के बाद बीमारी खत्म हो गया और कितने नए मरीज सामने आए। डेटा के अपडेट रहने से हम विभिन्न बीमारियों से निपटने की

दिशा में आगे की रणनीति तैयार कर सकेंगे। सिकल सेल के प्रभावितों को जांच दवा और इलाज में परेशानी नहीं हो मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग से कहा कि सिकल सेल के संक्रमितों की जांच और इलाज की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। सिकल सेल के मरीजों को समय-समय पर रक्त की जरूरत पड़ती है। ऐसे में उनके लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए। वहीं दवाईयां भी समय पर सहजता से मिलें, इसकी भी पुख्ता व्यवस्था करें। किसी भी संक्रमित को जांच और इलाज में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। हेल्थ काउंसलर की भूमिका काफी अहम है

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिकल सेल जैसी कई आनुवांशिक बीमारियों की स्क्रीनिंग और काउंसलिंग में हेल्थ काउंसलर की भूमिका काफी अहम होती है। ऐसे में उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग और किट्स उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि वे विभिन्न संक्रमण से जुड़ा रहे लोगों के लिए और भी बेहतर तरीके से अपनी सेवा दे सकें। हेल्थ काउंसलर के सहयोग से लोगों में आनुवांशिक बीमारियों की पहचान करने में काफी सहायता होगी और इसके बाद उनका समुचित इलाज किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि वे अपनी पढ़ाई जारी रखें। आपने जो परेशानी बताई है, उसका निश्चित समाधान निकाला जाएगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के अलावा डॉ. कर्मीनिका मित्र, प्रमुख, यूनिसेफ झारखंड, डॉ. विवेक सिंह प्रमुख, एआई, स्वास्थ्य, यूनिसेफ इंडिया, आस्था अलंग, संचार विशेषज्ञ, यूनिसेफ, डॉ. वनेश माथुर, हेल्थ ऑफिसर यूनिसेफ और शिवानी संचार विशेषज्ञ, यूनिसेफ मौजूद थीं।

प्रधानमंत्री मोदी तीन देशों की सफल यात्रा के बाद लौटे स्वदेश



नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की अपनी तीन देशों की यात्रा पूरी करने के बाद गुरुवार को स्वदेश लौट आए। यह यात्रा रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने, द्विपक्षीय संबंधों को नया आयाम देने और वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की गई थी। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए दिल्ली हवाई अड्डे पर मंत्रिमंडल के सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। यात्रा की पहली कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडस से मुलाकात की। दोनों देशों ने ऊर्जा, आईटी और निवेश के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। भारत और साइप्रस के बीच दोहरे कराधान से बचाव समेत तीन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। कनाडा यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी से मुलाकात की और आपसी व्यापार, शिक्षा एवं सुरक्षा के मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने टोरंटो में बसे भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की प्रगति में प्रवासी भारतीयों की भूमिका अहम है। कनाडा के साथ अनुसंधान और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े समझौतों को भी अंतिम रूप दिया गया। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री क्रोएशिया पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति जोरान मिलानोविच और प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेकोविच से बातचीत की। इस दौरान योग, आयुर्वेद और पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ रक्षा क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर विचार किया गया।

प्रधानमंत्री 20-21 जून को बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश का करेंगे दौरा

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 20 और 21 जून को बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे। इस दौरान वे 22,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। साथ ही, प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विशाखापत्तनम से योग महोत्सव का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की तरफ से गुरुवार को बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी 20 जून को दोपहर 12 बजे बिहार के सिवान पहुंचेंगे। वे यहां रेल, जल, बिजली और शहरी विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे एवं उद्घाटन करेंगे।

झारखंड में 24 तक होगी बारिश, भारी बारिश से आम जन-जीवन अस्त-व्यस्त

प्रत्युष नवबिहार संवाददाता

रांची : झारखंड के विभिन्न जिलों में 24 जून तक बारिश होगी वहीं राज्य में रांची सहित आसपास के कई जिलों में हो रही भारी बारिश से आमजन जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। रांची, खूंटी, हजारीबाग, लोहरदग्गा, गुमला सहित कई जिलों में हो रही भारी से राजधानी रांची बिजली की स्थिती चरमरा गई है। कई मुहल्लों में बिजली कटने और लो वोल्टेज की समस्या रही। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सबसे अधिक बारिश खूंटी जिले के अड़की में 155.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। वहीं रांची में 47.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं जमशेदपुर में 68.8, डालटेनगंज में तीन, बोकारो में 20.6, चाईबासा में 23 मिमी, देवघर में 21,



हजारीबाग में 22, खूंटी में 19.5, लातेहार में 24.5, सरायकेला-खरसावा में 54 तथा सिमडेगा में 36.5 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। पश्चिम बंगाल और आसपास के इलाकों में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जो दक्षिणी से उत्तरी हिस्से में होते हुए झारखण्ड को पार कर रहा है। इसके प्रभाव से राज्य के कई जिलों में अत्यधिक भारी बारिश हो रही है। हालांकि

आनेवाले एक- दो दिनों में बारिश में आरंगी। इधर, गुरुवार को रांची और आसपास के इलाकों में सुबह से भारी बारिश हो रही है। इस दौरान 30-40 की रफ्तार से हवा भी चल रही है। रांची में अधिकतम तापमान 25, जमशेदपुर में 26.4, डालटेनगंज में 29.3, बोकारो में 30.2 और चाईबासा में तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे। परीक्षा के पेपर लीक होने के आरोपों के बाद इसे उसी वर्ष 3 अक्टूबर को राज्य के केंद्रीय कांस्टेबल चयन बोर्ड द्वारा रद्द कर दिया गया था। ईडी को इस मामले में धनशोधन का संदेह है क्योंकि एजेंटों के एक गिरोह ने प्रश्नपत्र लीक करके और इसे उम्मीदवारों को बेचकर अवैध धन अर्जित की।



भरना था। इस परीक्षा में 18 लाख रांची और पटना में नीट पेपर लीक मामले में ईडी की छापेमारी रांची : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम नीट पेपर लीक मामले में रांची और पटना में छापेमारी कर रही है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार गुरुवार की सुबह ईडी की टीम रांची के बरियातू और पटना के कई ठिकानों पर पहुंच कर तलाशी ले रही है। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुए मास्टरमाइंड सजीव मुखिया के रिश्तेदार के ठिकानों पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। यह छापेमारी नीट पेपर लीक मामले में हुई मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर की जा रही है। सीबीआई की ओर से दर्ज मामले के आधार पर ईसीआईआर तैयार करने के बाद ईडी ने यह कार्रवाई की है।



से जुड़े हुए हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोलकाता में एक प्रेस पर भी छापा मारा है, जहां प्रश्नपत्रों की छपाई हुई थी। सूत्रों ने बताया कि बिहार के कुछ पुलिस अधिकारी भी ईडी की जांच के दायरे में हैं। उल्लेखनीय है कि इस घोटाले को अंजाम देने वाले लोग वही हैं, जो 2024 में नीट यूजी के प्रश्नपत्र लीक घोटाले में आरोपित हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 भर्ती के जर्जर 21,391 रिक्तियों को

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

21 जून 2025

'एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग'

Yoga For One Earth, One Health

योग-संगम
Yoga Sangam

समय: प्रातः 6.00 बजे से

स्थान: बिरसा मुण्डा फन पार्क जेल मोड, रांची

आकस्मिक स्थिति में किसी भी मरीज को एम्बुलेंस द्वारा स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाने हेतु निःशुल्क राज्य हेल्पलाइन नंबर 108 (रात की) पर कॉल करें

आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन-आरोग्य योजना की जानकारी हेतु निःशुल्क शासक करें (रात की) नम्बर- 18003456540

स्वास्थ्य संबंधी किसी भी जानकारी/शिकायत हेतु 24x7 निःशुल्क राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 (रात की) पर कॉल करें

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार

संक्षिप्त खबरें

तीन दिनों की बारिश से समी नदियां उफान पर खेतों में पानी देख किसान खुश



बड़कागांव : प्रखंड में पिछले तीन दिनों से भारी बारिश के कारण प्रखंड के तमाम नदिया उफान पर हैं। आंगो पंचायत के पवंडा नदी में भारी बाढ़ आ गई है, प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। प्रखंड के कांडतरा, सोनपुरा, महुडी, प्लांडु, बड़कागांव सूर्य मंदिर, शिवाडीह, पंडरिया, सिरमा, चोरका, सीकरी आदि गांवों के नदियों में 4 से 5 फीट पानी आ गया है। बारिश से तमाम खेत तलाबल हो गए, किसान खुश नजर आ रहे हैं। धान की बिड़ड़ा लगाने के लिए किसान तैयारी में जुट गए हैं। गांव मोहल्ला चौक चौराहे की स्थिति देखें तो अधिकतर रोड में पानी भारी जमाव देखा जा रहा है। नटराज नगर स्थित तालमणि महत्व के घर के समीप रोड में 2 फीट पानी बहा रहा है। बादम रोड की स्थिति विगत कई वर्षों से सड़क पर पानी जमा होने की शिकायत देखी जा रही है। वहीं भारी बारिश के कारण बादम के राउतपारा नदी में आई बाढ़ से भारी मात्रा में नदी किनारे मिट्टी का कटाव हो गया है। जिसके कारण नदी किनारे बन रहा मकान के लिए खतरा मंडराने लगा है। यही स्थिति चोरका उत्कर्मित नव प्राथमिक विद्यालय की भी है। इसके पहले भी पिछले 2 वर्ष पूर्व शमशान घाट, घर की चाहर दीवारी भारी बाढ़ के आगोश में समा गया था। कई प्रबुद्ध लोगों ने पिछले कई वर्षों से जनप्रतिनिधियों, प्रशासन से नदी किनारे गाईवाल बनाने की मांग की गई परंतु अब तक किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया। राउतपारा नदी में बाढ़ के कारण पुल निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। वहीं बारिश को लेकर देख तो खेतों में लगी साग सड़ियों को भारी नुकसान होने का अनुमान बताया जा रहा है। जिसका असर बाजारों में भी सख्तियों की किन्तु में बढ़ती रही है। मानसून प्रवेश होने से तत्कालीन बारिश लोगों को गर्मी से राहत मिली है इसके अलावा जल संकट दूर होना भी शुरू हो जाएगा। नदी तालाब में पानी जमा होने के कारण सुखे कुएं में भी पानी आना शुरू हो गया है। तीन दिनों की बारिश से लोगों का जनजीवन कामकाज पूर्ण रूप से प्रभावित कर दिया है।

कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का 55वां जन्मदिन मनाया



चौपारण : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 55वां जन्मदिन बुधवार को पूर्व विधायक के आवास में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बरही के पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ कैक काटकर राहुल गांधी के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। इस अवसर पर उमा शंकर अकेला ने कहा कि राहुल गांधी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे राहुल गांधी के विचारों को जन-जन तक पहुंचाएं। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी को मजबूत करने का संकल्प भी लिया। मीके पर कांग्रेस के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष मंडू यादव, ताजपुर मुखिया प्रतिनिधि अभिमन्यु भगत, पंसस प्रतिनिधि टुनु वर्णवाल, सतानंद यादव, गुलाबचंद यादव, मनोज सिंह, महेश केशरी, नकुल यादव, सिकंदर यादव, मनोज यादव, सकलदेव यादव, अजीत मेहता, रंजीत कुमार, चिनय कुमार, धनश्याम राणा, जितेंद्र यादव, रितेश कुमार, संतोष चंद्रवंशी, रियाज अंसारी, राम सिंह समेत कई अन्य पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

पावर हाउस के समीप टेम्पो एवं बाइक की टक्कर में आधा दर्जन लोग घायल

जयनगर : थाना क्षेत्र के पावर हाउस इंडाडीह के समीप गुरुवार को टेम्पो और दो पहिया वाहन की भीषण टक्कर हो गई। जिसमें करीब छः लोग घायल हो गए। आस्पताल के लोगों से मिली जानकारी के अनुसार एक बाइक जेएच.12.एस 3604 पर सवार तीन लोग जयनगर की ओर पिंपो की ओर जाने के दौरान पावर हाउस के समीप दूसरे बाइक को ओवर टेक करने लगे इस दौरान बाइक अनियंत्रित हो कर पिंपो की ओर से आ रही टेम्पो जेएच.12.एस 5565 में टक्कर मार दी जिससे बाइक पर सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए साथ टेम्पो से वहीं तीन अन्य घायल हो गए।

अखिल भारतीय धोबी महासंघ नगर कमेटी झुमरी तिलैया की बैठक



जयनगर : तिलैया में नगर सचिव रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में की गई बैठक में विगत कार्यक्रमों का कार्य रिपोर्ट नगर सचिव रविंद्र कुमार ने प्रस्तुत किया जो सबो ने सर्वसम्मत से पास किया बैठक को संबोधित करते हुए जिला परिषद सदस्य सह संरक्षक महादेव राम ने कहा कि भारत का संविधान देश के लिए आत्मा है और वह आत्मा को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं इसके लिए अपने समाज के साथ-साथ बहुजन समाज को संविधान बचाने की लड़ाई को तेज करने की आवश्यकता है। जब देश में संविधान एवं लोकतंत्र नहीं बचेगा तो समाज के लिए काफी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। बैठक को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय धोबी महासंघ के जिला सचिव प्रकाश रजक ने कहा कि धोबी समाज को जगा कर संविधान की रक्षा करने की आवश्यकता है हमारा समाज आज भी संविधान की जानकारी से कोसों दूर है इसलिए गांव-गांव में बैठक करके अपने समाज के साथ-साथ आस पड़ोस के लोगों को जगा कर शिक्षा का माहौल पैदा करने की आवश्यकता है आज पूरे देश में शिक्षा व्यवसाय करण हो गया है इसलिए शिक्षा व्यवसाय करण के खिलाफ एक जुट होकर संघर्ष तेज करने की आवश्यकता है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री नहीं चाहते हैं कि गरीबों के बच्चे दलितों के बच्चे असहाय के बच्चे पढ़ लिखकर ओहदे पद पर नहीं जाए।

धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत ग्राम बंदरचौकवा में शिविर का हुआ आयोजन

एक नजर

चौपारण निवासी रोहित जैन के निधन पर शोक की लहर

चौपारण : चौपारण के युवा व्यवसायी रोहित जैन के असामयिक निधन से क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। उनके निधन से सामाजिक, व्यापारिक और जनकल्याण के क्षेत्र में सक्रिय एक ऊर्जावान चेहरे को समाज ने खो दिया। बरही विधायक मनोज कुमार यादव ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि रोहित जैन का निधन चौपारण के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा वे न केवल एक सफल व्यवसायी थे, बल्कि एक संवेदनशील और मिलनसार इंसान भी थे। कोरोना जैसी आपदा के समय उन्होंने मानवता की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। रोहित का जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, जिसकी भरपाई असंभव है। विधायक ने शोककुल परिवार को सांत्वना देते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनो को इस दुःख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। रोहित जैन की सामाजिक सक्रियता और सरल स्वभाव को लोग हमेशा याद रखेंगे। रोहित जैन के निधन पर शोक व्यक्त करने वालों में कई गणमान्य और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। प्रमुख शोक व्यक्त करने वालों में पूर्णिमा देवी, आरती कौशल, दया सिंह सहित अन्य लोगों ने शोक संवेदना प्रकट की।

मारी बारिश के कारण मद्यान टूटने से एक मवेशी की मौत, गुआवजे की मांग

चौपारण : बीते दो दिनों से भारी बारिश के कारण ग्राम हथिंदर में हरी भुइयों का मावा टूटकर गिर गया। इस घटना में दो जानवर दब गए, जिनमें से एक की मौत हो गई है। देहर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि नागेंद्र दांगी ने जानकारी देते हुए प्रशासन से सहायता की अपील की है। उनका कहना है कि इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने मावा के पुनर्निर्माण, गुआवजा और अन्य सुरक्षा उपायों की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।

बेलटांड दुर्गा पूजा कमेटी के संस्थापक सदस्य का हार्ट अटैक से निधन



पटमदा : श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति लावा (बेलटांड) के संस्थापक सदस्य सह दुकानदार धनंजय उपाध्याय का गुरुवार को सुबह करीब 8 बजे शीघ्र के दौरान हार्ट अटैक आ गया। वह करीब एक घंटे तक शीघ्र के अंदर ही बंद थे। बाद में आवाज लगाने पर कोई जवाब नहीं मिला तो दरवाजा तोड़कर उन्हें निकाला गया। इसके बाद पटमदा के मावा स्थित सीएचसी अस्पताल पहुंचाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके असामयिक निधन की सूचना पर क्षेत्र में शोक की लहर है। वह करीब 56 वर्ष के थे। इस संबंध में समिति के अध्यक्ष ईशान चंद्र गोप ने बताया कि धनंजय उपाध्याय के आकस्मिक निधन से समाज को अपूरणीय क्षति हुई है।

मारी बारिश जनजीवन अस्त्र-व्यस्त

मुरी : पिछले तीन-चार दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। स्वर्ण रेखा नदी समेत कई जलाशय उफान पर हैं। वहीं अवरुद्ध नालों का पानी सड़कों पर आ गए हैं जिससे आम जनता परेशान हो गए हैं। लोग बाजारों में कम निकले जिससे व्यवसायियों का व्यापार में भी प्रतिकूल असर रहा। कई स्कूल बंद रहे और बच्चों में भीड़ बिल्कुल न के बराबर थी।

प्रत्युष नवबिहार संवाददाता
मरकच्चो : धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एवं प्रधानमन्त्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना अंतर्गत प्रखंड मरकच्चो के ग्राम बंदरचौकवा में गुरुवार को शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ विधिवत दीप प्रज्वलित कर किया गया। उपयुक्त एवं जिले से आए पदाधिकारियों को पौधा दे कर सम्मानित किया गया। शिविर में उपयुक्त ऋतुराज, डी पी ओ अनूप कुजूर, बीडीओ हुलास महतो, एण्डीएम विमलकान्त झा, प्रखंड प्रमुख विजय कुमार सिंह, स्थानीय मुखिया शोभा देवी के साथ साथ विभिन्न विभागों के पदाधिकारी



मौजूद थे। शिविर का आयोजन अनुसूचित जनजाति समुदाय के परिवार को केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं का लाभ उनके गांवों में प्रदान किया जाना है। शिविर में काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी। शिविर में उपयुक्त ऋतु राज के द्वारा परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। बंदरचौकवा ग्राम संगठन के तहत बैंक द्वारा 11 सखी मंडल को कुल 41 लाख का चेक दिया गया। 2 लाभको को केसीसी लोन, 2 लाभकों को पेंशन, आयुष्मान कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, 3 लाभको को मुद्रा लोन, 1 लाभक को

PMFME के तहत लोन, 60 वर्ष से ऊपर की दो महिला मुन्नी देवी एवं बड़की देवी का आधार कार्ड बनाया गया। मनरेगा जॉब कार्ड आदि परिसंपत्तियों का वितरण शिविर में किया गया। उपयुक्त ने सभी ग्राम वासियों से आग्रह किया कि शिविर में आ कर ज्यादा से ज्यादा योजना का लाभ लें एवं सरकार के इस शिविर से होने वाले फायदे के बारे में सभी को जानकारी दें। शिविर का आयोजन कर के सरकार अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है। शिविर में ओपीडी के 153, जाति 7, आवासीय 7, आधार कार्ड के 11, राशन कार्ड के 93, उच्चला योजना 18, पोषण अभियान के 4, पीएम मातृ चंदना योजना 4, आयुष्मान भारत के 38, टीबी मुक्त भारत के 1, मिशन इंद्रधनुष के तहत 78, पीएम जनधन योजना 11, स्टैंड अप इंडियन योजना के 1, मुद्रा योजना के 1, पीएम विश्वकर्मा योजना 6, केसीसी 2, पीएम किसान 4, मनरेगा के 20, सर्वजन पेंशन योजना 20 इत्यादि के आवेदन प्राप्त हुए।

रेलवे एनटीपीसी परीक्षा केंद्र पर अत्यवस्था से छात्रों में आक्रोश



प्रत्युष नवबिहार संवाददाता
बड़कागांव : रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की ऑनलाइन परीक्षा के पहले ही सत्र में हजारीबाग शहर के इंद्रपुरी चौक स्थित एक परीक्षा केंद्र पर गंभीर अव्यवस्था देखी गई। गुरुवार को सुबह परीक्षा देने पहुंचे अनेक अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के गेट के बाहर ही रोक दिया गया, जिससे वहां अफरा-तफरी और असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई। परीक्षार्थियों द्वारा पूछताछ के बाद यह जानकारी सामने आई कि केंद्र में बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित थी। वैकल्पिक व्यवस्था के

रूप में लगाए गए डीजल जनरेटर में भी भारी बारिश के कारण पानी चुस गया, जिससे वह कार्य नहीं कर सका और परीक्षा समय पर शुरू नहीं हो पाई। छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के केंद्र के बाहर लंबे समय तक खड़ा रखा गया, जिससे वे मानसिक रूप से काफी तनाव में आ गए। जब समस्या लंबी होती गई तो छात्रों में आक्रोश बढ़ने लगा। स्थिति को गंभीरता और छात्रों की पीड़ा को देखते हुए हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने भारी बारिश के बावजूद तत्काल परीक्षा केंद्र पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने वहां मौजूद छात्रों से संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनीं और तुरंत परीक्षा एजेंसी के संचालक से वार्ता कर कड़ी नाराजगी जताई।

सलगा पंचायत भवन में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच का कैंप लगाया गया

प्रत्युष नवबिहार बड़कागांव

केरेंदारी : प्रखण्ड के ग्राम सलगा के सलगा पंचायत भवन में सेंट कोलम्बस अस्पताल हजारी बाग के सौजन्य से निशुल्क स्वास्थ्य जांच का कैंप का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित सलगा पंचायत के मुखिया महोदय पार्वती देवी पंचायत समिति सदस्य मीना देवी पूर्व पंचायत समिति सदस्य शनिचर गंडु सामिल थे। इलाज का समय सुबह 11:00 बजे दिन से लेकर शाम 2:30 बजे तक किया गया जिसमें शरीर का अनेक प्रकार का बीमारियों का जांच हुआ। ग्राम पंचायत सलगा के वासियों सैकड़ों महिला पुरुष समय पर जाकर अपना जांच करवा जो डॉक्टर हजारी बाग से स्पेशल सलगा पंचायत भवन में सलगा पंचायत वीडियो के सुविधा के लिए



बेहतरीन कैंप का आयोजन किया गया इस कैंप में अनेक प्रकार की बीमारियों जांच किया गया इसमें डॉक्टर दीपांशु रंजन मिश्रा के सज्ञान में जांच किया गया इस टाइम में एक से एक बढ़कर नर्स एवं कंथुएर और जांच की मशीन लेकर जांच किया जैसे ने पहले टेबल पर लगा जांच का कैंप दंत जांच दूसरा आंख जांच तीसरा बलड प्रेशर शुगर चौथ रेडम ब्लड शुगर का जांच पूर्ण रूप से किया गया डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि आज जो इलाज हो जा

रहा है उनका रिपोर्ट आज से लेकर कल तक साप रिपोर्ट पहुंच जाएगा अनाथा जो पानी की वजह से अगर हमारे कैंप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अगले माह में कैंप का आयोजन फिर से किया जाएगा जिसमें सलगा वासियों ने आकर पूर्ण रूप से बीमारियों को जांच करवा लेंगे और मेरे अनुसार आप दवाइयां खाएं बीमारी अवश्य ठीक होगा डॉक्टर के मुताबिक सभी सलगा वासियों ने बात को समझा आज का जो भी मौसम था।

आंगो पंचायत में धरती आवास जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शिविर का किया गया आयोजन



प्रत्युष नवबिहार संवाददाता
बड़कागांव : बुधवार को आंगो पंचायत में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्रालय में केंद्र सरकार एवं झारखंड सरकार धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी शामिल हुए। कार्यक्रम में उपस्थित ब्लॉक के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने

आंगो पंचायत में शिविर लगा कर लोगों का समस्या का समाधान किया। मौके पर उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी जितेंद्र मंडल , कल्याण पदाधिकारी पंकज गुप्ता , खाद्यान आपूर्ति पदाधिकारी भास्कर कुमार, मुखिया नीलम मिंज , आवास कोर्डिनेटर विकास कुमार, पेंशन सम्बंधित एवं जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र का कम्प्यूटर आधारित प्रकाश कुमार , पंचायत सचिव मुकेश कुमार दास , रोजगार सेवक शंभू कुमार दास

एवं मुखिया निलम मिंज एवं उप मुखिया लालो कुमार महतो उपस्थित थे। समाज सेवी सह आजसू केन्द्रीय सदस्य कौलेश्वर गंडू , मुखिया प्रतिनिधि महेंद्र मांझी , पंचायत सहायक बिरेंद्र कुमार महतो, सीएससी आपरेटर प्रदीप महतो, हेमंत किस्पोट्टा, गोविंद हेमन्त्र, बिरेंद्र हंसदा, राकेश मरांडी, जलेश्वर कुमार महतो , शिवू महतो, जुगेशवर गंडू , राजू गंडू, सुखदेव गंडू , माना उरांव , विमल टुडु, छोटेलाल मरांडी, संजय महतो, कुलदीप महतो, मनीलाल मुंडा, राज मुंडा, महादेव मांडी, रमन गंडू , रविन्द्र गंडू, एतवा गंडू, मनीजर गंडू , नागेश्वर गंडू , संतोष गंडू, तमिल गंडू, बिनोद उरांव सहित पंचायत के कई ग्रामीण उपस्थित थे।

पैक्स/व्यापार मंडल में 500 एम टी क्षमता के गोदाम निर्माण के चयन हेतु बैठक

प्रत्युष नवबिहार संवाददाता

चतरा : समाहरणालय सभा कक्ष में उपयुक्त कीर्तिश्री की अध्यक्षता में प्रखंड स्तर पर उत्कृष्ट कार्य कर रहे पैक्स/व्यापार मंडल में 500 एमटी क्षमता के गोदाम निर्माण के चयन हेतु बैठक की गई। बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा 5 पैक्स एवं एक व्यापार मंडल का कुल 6 प्रस्ताव उपयुक्त के समक्ष रखा गया। जिसपर उपयुक्त ने सर्वसम्मति से 4 प्रस्ताव यथा कान्हाचट्टी प्रखंड के राजपुर पैक्स लिमिटेड, गिद्धौर प्रखंड के द्वारि पैक्स लिमिटेड, पथलगाड्डा प्रखंड के सिंधानी पैक्स लिमिटेड एवं बरवाडीह पैक्स लिमिटेड पर निर्णय लेते हुए निर्देशित किया कि वे पैक्स/व्यापार मंडल जहां पूर्व से गोदाम निर्मित नहीं है वैसे पैक्स/व्यापार मंडल जिसको जिला स्तरीय बैठक में स्वीकृति प्रदान की



गई है उस प्रस्ताव को निबंधक सहयोग समितियां झारखंड रांची को भेजे। उक्त बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी लोकनाथ महतो, जिला आपूर्ति पदाधिकारी मनिंदर भगत, वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी अजीत गोप समेत अन्य सभी संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

बीएलओ को मतदान केंद्र का जियो फेंसिंग व नजरी नक्शा का मिला प्रशिक्षण ली

प्रत्युष नवबिहार संवाददाता

बोकारो : निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, 36-बोकारो -सह-अनुमण्डल पदाधिकारी, चास सुश्री प्रांजल दांडा की अध्यक्षता में मतदान केन्द्रों के नजरी नक्शा एवं श्रैड्ड-श्रैड्डकूल्ल से संबंधित कार्य हेतु 36-बोकारो विधानसभा क्षेत्र के सभी बीएलओ एवं बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों को दिनांक 17 जून से 21 जून, 2025 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण स्थल तीन जगहों पर किया जा रहा है, जिसमें 1. अनुमण्डल कार्यालय, चास के सभागार में जहाँ बीएससिटी क्षेत्र के बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षक हेतु, प्रखण्ड कार्यालय, चास के सभागार में जहाँ ग्रामीण क्षेत्र के बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षक हेतु तथा नगर निगम, चास के सभागार में जहाँ निगम क्षेत्र के बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षक हेतु। उक्त



प्रशिक्षण सभी स्थलों में प्रोजेक्टर के माध्यम से बीएलओ को प्रशिक्षित करने के साथ-साथ चिन्हित मतदान केन्द्रों में टेनर के माध्यम से मैचान में डेमो भी कराया जा रहा है। ताकि बीएलओ अपने-अपने मतदान क्षेत्र का नजरी नक्शा

एवं का कार्य सूचारु रूप से कर सके। अधिकारियों ने प्रोजेक्टर के माध्यम से बताया कि किस तरह नजरी नक्शा बनाना है। साथ ही सभी बीएलओ को तीन तरह का फार्मेट दिया गया है, जिसमें दो तरह का फार्मेट नजरी नक्शा के लिए व

अक्षांश व देशांतर दर्शाते हुए नजरी नक्शा बनाना है। इस नजरी नक्शा में धरों की संख्या, महत्वपूर्ण स्थानों को दर्शाते हुए बनाया है। इसके लिए सभी बीएलओ को तीन तरह का फार्मेट दिया गया है, जिसमें दो तरह का फार्मेट नजरी नक्शा के लिए व

एक फार्मेट जियो फेंसिंग से संबंधित है। बताया गया कि सभी बीएलओ आगामी 28 जून तक इस कार्य को पूरा कर फार्मेट संबंधित कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। मास्टर टेनर के रूप अनुमण्डल पदाधिकारी चास है टेनर के रूप में ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चास प्रदीप कुमार एवं निर्वा0क0अं0 श्री प्रेमदीप प्रसाद, बीएससिटी क्षेत्र हेतु कार्यपालक टपडाधिकारी, चास श्रीमती सत्यबाला सिन्हा एवं निर्वा0क0अं0 शिव कुमारी बाउरी, नगर निगम क्षेत्र हेतु कार्यपालक टपडाधिकारी, चास जय कुमार एवं सचिन कुमार पाठक, खुशबु कुमार तथा तीनों क्षेत्रों के मास्टर टेनर के रूप अनुमण्डल पदाधिकारी, चास सुशी प्रजावल दांडा निर्वा0क0अं0 श्री सुबंभूषण एवं निर्वा0क0अं0 श्री पंकज कुमार प्रतिनियुक्त है।

एक नजर

राज्य का एकमात्र होम्योपैथिक कॉलेज बार्बार्डी के कगार पर : अजय साह

रांची : भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने गोड्डा के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की अव्यवस्था और इसकी मान्यता पर मंडरा रहे सकट को लेकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार की लापरवाही और संवेदनहीनता के चलते यह संस्थान अपने अस्तित्व और पहचान दोनों को खोने की कगार पर है। अजय साह ने कहा कि कॉलेज में स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिससे संस्थान में प्रशासनिक कार्य टप हैं। कॉलेज में 42 स्वीकृत पदों के काबिले मात्र 8-10 शिक्षक कार्यरत हैं, जो शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लगाता है। कॉलेज में छात्रावास की बेहद कमी है। इंटरन होस्टल के अभाव में छात्रों को प्रतिदिन 40 किलोमीटर दूर गोड्डा शहर से कॉलेज तक आना-जाना पड़ता है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कर रहे विद्यार्थियों को 10 हजार मासिक स्टाइपेंड दिया जा रहा है, जो आयुष मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के विपरीत है। इसके अलावा छात्रों को यह नाममात्र राशि भी समय पर नहीं मिलती, जिससे उन्हें गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। यदि यह स्थिति बनी रही, तो केंद्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा इस कॉलेज की मान्यता कभी भी रद्द की जा सकती है। राज्य सरकार की लापरवाही ने इस संस्थान को बार्बार्डी के रास्ते पर लाकर खड़ा किया है।

मीषण गर्मी में 61 दिनों तक अग्रसेन धारा ने बुझाई लोगों की प्यास

रांची : अग्रवाल युवा सभा की ओर से संचालित तीन निःशुल्क चलंत प्याऊ, अग्रसेन धारा ने विगत 61 दिनों तक निरंतर निःशुल्क सेवा दी। इस सेवा ने पिछले 61 दिनों में निरंतर बारी-बारी से शहर के विभिन्न स्थानों में जाकर वहां के नागरिकों, दुकानदारों और राहगीरों को शीतल पेयजल, सतू पानी, ग्लूकोज पानी, आम पानी, रूह अफजा शर्बत की सुविधा उपलब्ध करायी। अध्यक्ष रीनक झुनझुनवाला ने गुरुवार को बताया कि यह चलंत प्याऊ सेवा हमारे दानदाताओं के प्रयास से विगत तीन वर्षों से अग्रवाल युवा सभा की ओर से चलाया जा रहा है। इस वर्ष अग्रसेन धारा ने 61 दिनों में श्रद्धानंद रोड, कुजलाल स्ट्रीट, सोनार पट्टी, बारूद दुकान गली, नॉर्थ मार्केट रोड, ईस्ट मार्केट रोड, वेस्ट मार्केट रोड, प्यादा टोली, महावीर चौक, गांधी चौक, बड़ा लाल स्ट्रीट, कांतवाली थाना, नागा बाबा खटाल, राजभवन, कचहरी रोड, पंडरा बाजार समिति, रवि स्टील पंडरा, रातु रोड, लालपुर अग्रसेन चौक, मेन रोड, सुजाता चौक, कांके रोड, हरमू रोड, सहजानंद चौक पर अपनी सेवाएं दी हैं।

लघु उद्योग भारती की नई कार्यकारिणी गठित विजय मेवाड़ बने अध्यक्ष

रांची : लघु उद्योग भारती, झारखंड प्रदेश की वर्ष 2025-27 की नई कार्यकारिणी का गठन गुरुवार को हुआ। यह घोषणा, रांची में संगठन की हुई आमसभा की बैठक के बाद की गई। जिसके तहत विजय मेवाड़ को प्रदेश अध्यक्ष, जबकि सत्यप्रकाश पांडेय को प्रांतीय उपाध्यक्ष, ज्ञान चन्द्र जयसवाल (कोल्हाण प्रभारी), प्रवीण झा, शैलेंद्र कुमार पांडे, कृष्ण नंदन सिंह, किशोर गोलछा, महा सचिव विनोद अग्रवाल, संयुक्त महासचिव प्रकाश हेमत्सरीया, अखिलेश्वर नारायण राय, सचिव अजय कुमार दाधीच, लाल बाबू सिंह पीटेल, आनंद दाबू (सोशल मीडिया प्रभारी), प्रदिपो मुखर्जी (दुमका) और कोषाध्यक्ष सरोज कांत झा को बनाया गया है।

राहुल गांधी का पूरा ध्यान ग्राम और निकाय स्तर के संगठन पर : के राजू

प्रत्युष नवबिहार संवाददाता

रांची : प्रदेश कांग्रेस ने नियुक्त जिला पर्यवेक्षकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में गुरुवार को हुआ। मौके पर मुख्य अतिथि प्रदेश प्रभारी के राजू ने संगठन और आगामी निकाय चुनाव के संबंध में प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम के दौरान के राजू ने कहा कि राहुल गांधी का पूरा ध्यान ग्राम और निकाय स्तर के संगठन पर रहता है। कांग्रेस को नीचे के स्तर पर मजबूत करना होगा। प्रखंड और जिला स्तर पर संगठन मजबूत होता है, लेकिन कांग्रेस की कमजोरी है कि जमीनी स्तर पर हम कमजोर हैं। इसके कारण हम अपनी बातों को पूरी

तरह जनता के पास नहीं पहुंच पाते। पंचायत स्तर पर संगठन मजबूत नहीं होने के कारण लोकसभा विधानसभा चुनाव में प्रत्येक बूथ पर 10 से 50 के बीच कांग्रेस समर्थक मतदाता मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाए। इसके कारण हम कई सीटों पर बहुत कम मतों के अंतर से चुनाव हारे। उन्होंने उपस्थित पर्यवेक्षकों से कहा कि प्रथम चरण में छूटे हुए प्रखंड अध्यक्षों को झारखंड एप में रजिस्टर्ड करना है और मंडल अध्यक्षों को भी रजिस्टर्ड कर प्रखंड अध्यक्ष, पर्यवेक्षक और मंडल अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना है। 214 प्रखंड अध्यक्ष एप में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। शेष को भी जोड़ना है। हमें संगठन



को चुनावी अभियान के तहत तैयार करना होगा, पंचायत स्तर पर संगठन होने से हम बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति कर सकते हैं जो किसी भी बूथ पर मतदाता पंजीकरण का एक अहम हिस्सा होता है। उन्होंने कहा कि बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति चुनाव

आयोग की ओर से राजनीतिक दलों की अनुशंसा पर किया जाता है जो चुनावी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। चुनाव के लगभग छह माह पूर्व मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसलिए पंचायत स्तर और वार्ड स्तर पर संगठन को मजबूत करना है। सशक्त पंचायत समिति ही सशक्त संगठन की पहचान : कमलेश प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि सशक्त पंचायत समिति ही सशक्त संगठन की पहचान हो सकती है। पंचायत समिति के सदस्यों को ग्राम के हर मतदाता की पहचान होती है। पंचायत स्तर पर संगठन होने से मतदाता सूची में हेर फेर की

संभावना कम होती है। कांग्रेस समर्थित मतदाता आसानी से मतदान कर सकते हैं। संगठन के कार्यों और भावी कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आगामी कुछ महीनों में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए अभी से जमीनी स्तर पर कार्य करना होगा। निकाय स्तर पर संगठन समर्थित और धर्मनिरपेक्ष विचारधारा की जीत से संगठन की मजबूती लोगों के सामने आणी जनता का भरोसा हम पर कायम है। उनके भरोसे को कायम रखते हुए एप काम करना है। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीति और झारखंड सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाना है।

झारखंड शराब घोटाला : छत्तीसगढ़ के कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया को एसीबी ने किया गिरफ्तार

प्रत्युष नवबिहार संवाददाता

रांची : झारखंड के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने शराब घोटाला केस में छत्तीसगढ़ के कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि सिद्धार्थ सिंघानिया को रायपुर से गिरफ्तार किया गया है। सिद्धार्थ को रायपुर कोर्ट में पेशी के बाद ट्रांजिट रिमांड पर रांची लाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी सिद्धार्थ के खिलाफ एसीबी ने पिछले दिनों कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट हासिल किया था। इससे पहले एसीबी ने निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे के करीबी और नेक्सजेन के मालिक विनय कुमार सिंह के खिलाफ वारंट लिया था। झारखंड शराब घोटाला मामले में एसीबी की लगातार कार्रवाई जारी है।



इससे पहले मंगलवार (17 जून) को एसीबी की टीम ने पूर्व उत्पाद कमिश्नर अमित प्रकाश को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद अमित प्रकाश से एसीबी मुख्यालय में पूछताछ की गयी थी। शराब घोटाला केस में झारखंड एसीबी की टीम ने सिद्धार्थ सिंघानिया के रूप में यह सातवां गिरफ्तारी की है। इससे पूर्व उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग प्रधान सचिव आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे, पूर्व उत्पाद

प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने धूमधाम से मनाया राहुल गांधी का जन्मदिन



प्रत्युष नवबिहार संवाददाता

रांची : प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी का जन्म दिवस प्रेस क्लब में गुरुवार को केक काटकर धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू और अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सहित अन्य नेताओं ने राहुल गांधी के स्वास्थ्य को दीर्घायु होने की कामना की। राहुल गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर देश की जनता के लिए उठाए गए मुद्दों, किए गए संघर्षों और उनके भाषण के ऑडियो

विजुअल प्रदर्शित किया गया। इसके बाद चेशायर होम में लोगों के बीच फल वितरित किया गया। इस अवसर पर बंधु तिकी, शहजादा अनवर, जलेश्वर महतो, मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, मंत्री इरफान अंसारी, मंत्री शिल्पी नेहा तिकी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, रवींद्र बालमुचु, सुबोधकत सहाय, पूर्व अध्यक्ष रामेश्वर उरांव, ममता देवी, रविंद्र सिंह, संजय लाल पासवान, किशोर नंजय शाहदेव सोनाल शांति सहित अन्य उपस्थित थे।

भारी बारिश के मद्देनजर आज बंद रहेंगे रांची के सभी स्कूल, आदेश जारी



प्रत्युष नवबिहार संवाददाता

रांची : भारी बारिश को मद्देनजर 20 जून को भी राजधानी रांची के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। रांची डीसी ने इसका आदेश जारी कर दिया है। इसमें सरकारी, गैर-सरकारी, निजी और अल्पसंख्यक स्कूल शामिल हैं। यह आदेश केजी से लेकर 12वीं तक के सभी क्लास के लिए लागू है। अगर कोई स्कूल इस आदेश को नहीं मानेगा, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जारी आदेश में कहा गया है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत मौसम विज्ञान

केन्द्र, रांची के विशेष बुलेटिन में 21 जून तक भारी बारिश से संबंधित चेतावनी उपलब्ध करायी गयी है। साथ ही बारिश के परिप्रेक्ष्य में रेड जोन की श्रेणी में रांची जिला को चिह्नित करते हुए भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गयी है। इस कारण भारी बारिश को देखते हुए 20 जून (शुक्रवार) को भी जिले के सभी कोर्ट के विद्यालय बन्द रहेगी। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर संबंधित विद्यालय/संस्थान आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की सुसंगत धारा के तहत उत्तरदायी होंगे।

वित्त विभाग और स्वानिति इनिशिएटिव के बीच हुआ एमओयू

प्रत्युष नवबिहार संवाददाता

रांची : झारखंड ने स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए गुरुवार को नेपाल हाउस स्थित योजना भवन सभागार में एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता योजना एवं वित्त विकास विभाग, झारखंड सरकार और स्वानिति इनिशिएटिव के बीच हुआ, जिसका उद्देश्य है राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में शून्य कार्बन उत्सर्जन सुनिश्चित करने के लिए एक सशक्त ढांचा तैयार करना है। एमओयू में योजना एवं विकास विभाग की ओर से संयुक्त सचिव अनिलसन लकड़ा और स्वानिति इनिशिएटिव की ओर से टूटी उमा भट्टाचार्य ने हस्ताक्षर किया। इस अवसर पर योजना एवं वित्त विकास विभाग मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि



झारखंड कोयला आधारित विद्युत उत्पादन में अग्रणी है। लेकिन अब समय है कि हम ऊर्जा के स्वच्छ ढांचा तैयार करें। एमओयू की यह पहल, राज्य के भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन के लिए मील का पथर होगा। मंत्री ने योजना विभाग को मद्दर ऑफ अल डिपार्टमेंट्स बताते हुए विभाग की इस पहल की सराहना की। और इसे झारखंड के सर्वांगीण विकास

से जोड़ा। उन्होंने कहा कि यह प्रेमवर्क झारखंड को भारत में पहला ऐसा राज्य बनाएगा। जहां यह मॉडल लायू होगा। राज्य को एशिया का पहला ऐसा राज्य बनाएगा। जो एनर्जी ट्रांजिशन रेडीनेस इंडेक्स के साथ शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में लक्ष्य को पूरा करेगा। इस अवसर पर विभाग के सचिव मुकेश कुमार, विशेष सचिव राजीव रंजन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

झारखंड में राष्ट्रीय गो सेवा कार्यशाला शुरू, कृषि मंत्री शिल्पी ने किया उद्घाटन

प्रत्युष नवबिहार संवाददाता

रांची : झारखंड गो सेवा आयोग की ओर से पशुपालन भवन हटिया के सभागार में गुरुवार की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला की शुरुआत हुई। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिकी ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पारिस्थितिक संतुलन एवं आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में उभरती चुनौतियां और संभावनाएं, विषय पर आधारित इस कार्यशाला में गोवा, हिमाचल, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, बिहार और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मौके पर मंत्री शिल्पी नेहा तिकी ने कहा कि पशु से प्रेम व्यक्ति की सोच



और व्यवहार को दर्शाता है। झारखंड देश का पहला राज्य है, जिसे गोशालाओं को पशु आहार के लिए प्रतिदिन 100 रुपये की दर से कोनेझकोने से गो सेवा के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य करने वालों का

जीतना हुआ है। गो संवर्धक और संरक्षक के रूप में राज्य की पहचान हो ये हम सबका का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि गो सेवा के क्षेत्र में कई तरह की चुनौतियां रही हैं। लेकिन उन तमाम चुनौतियों से आगे

बढ़ते हुए हम सफल होंगे। उन्होंने निर्बाध गोशाला कैसे आत्म निर्भर बने इसकी कार्ययोजना तैयार कर काम करने पर बल दिया। पूर्व सांसद डॉ वल्लभभाई कथिरिया ने कहा कि झारखंड में पशु पालक गो सेवा के क्षेत्र में एंबेसडर की भूमिका अदा कर सकते हैं। कार्यशाला में विभागीय सचिव अन्व बक्कर सिद्धी ने कहा कि इस तरह का आयोजन पहली बार हो रहा है। विभाग का उद्देश्य गो सेवा और उसका संरक्षण करना है। उन्होंने कहा कि अब गोशाला को पहले से ज्यादा वित्तीय पावर देने की तैयारी विभाग ने कर ली है। कार्यशाला में आयोग सदस्य, वक्ता सहित कई अधिकारी पदाधिकारी मौजूद थे।

संक्षिप्त खबरें

रांची में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित कई जगहों पर जलभराव



रांची : झारखंड की राजधानी रांची में लगातार हो रही भारी बारिश ने आम जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलभराव की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। सड़कें जलमग्न हैं, नदियां उफान पर हैं और सार्वजनिक स्थल जलसिंचित हो चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग घरों से बाहर निकलने में असमर्थ हो गए हैं। रांची शहर की प्रमुख सड़कों और आवासीय क्षेत्रों में जलजमाव से यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। राजधानी की तुलना में सड़कों पर वाहनों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई है, क्योंकि लगभग हर रास्ते पर पानी जमा है। करमटोली चौक, कांके स्मार्ट बाजार के आसपास, कोकर की गलियों और पंचशील पंडरा जैसे इलाकों में सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। बहुबाजार के गणपत नगर में तो हालात इतने खराब हैं कि सड़क तक दिखाई नहीं दे रही है, वहां चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों को जरूरी कार्यों के लिए भी घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। सिर्फ शहर की सड़कें ही नहीं, बल्कि आसपास की नदियां भी खतरों के निशान के करीब पहुंच चुकी हैं। हरमू नदी, जिसमें बहुत कम पानी रहता है, इस समय पूरी तरह भरी हुई है और तेज धाराओं के साथ बह रही है। वहीं स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है और अब पानी पुल के बराबर तक पहुंच चुका है। बड़ा तालाब के चारों ओर भी पानी भर चुका है और नजदीकी कॉलोनिनों को इससे खतरा उत्पन्न हो रहा है। भारी बारिश ने रांची के सार्वजनिक स्थलों को भी नहीं बख्शा है। शहर के कई पार्कों में पानी भर गया है। जलभराव के कारण इन जगहों की देखरेख भी टप पड़ गई है। पार्कों के अलावा कई सामुदायिक केंद्र और खुले स्थल भी जलमग्न हो गए हैं।

झारखंड में कहर बनकर बरस रही बारिश : विजय शंकर नायक

रांची : उपरोक्त बातें गुरुवार को आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच के केंद्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक प्रत्याशी विजय शंकर नायक ने आज झारखंड में भारी बारिश से हुए जनजीवन अस्त व्यस्त होने पर अपनी प्रतिक्रिया में उक्त बातें कही। इन्होंने आगे बताया कि राज्य के सभी जिलों में भारी बारिश ने जनजीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है और कई जिलों में छोटी-बड़ी नदियां मार रही भंयकर उफान, घरों में घुस रहे हैं पानी पुरा, पुलिया, डायवर्सन, कच्ची सड़क धंस रही है जिसका खामियाजा आम जनो को भुगतान पड़ रहा है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। नायक ने आगे बताया कि तोरपा-सिमडेगा रोड का एक पुल भारी बारिश में धंस गया है, जिसमें एक ट्रैक फंस गया है। पुल के धंसने से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। पुल के धंसने से तोरपा और सिमडेगा के बीच यातायात पूरी तरह से टप हो गया है वहीं रांची-भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया है। इससे आवागमन में परेशानी हो रही है और पानी घुटने तक भर गया है। रांची में भारी बारिश से कई घरों में पानी घुस गया है। नायक ने आगे कहा कि मंगलवार से शुरू हुई बारिश ने झारखंड लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। शहर हो या गांव हर जगह आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से प्रदेश के विभिन्न जिलों में बहने वाली छोटी-बड़ी नदियां उफान मार रही हैं। कहीं सड़क धंसा तो कहीं घरों में घुसा पानी। राज्य के सभी जिलों के मेन रोड में भारी जल जमाव होने से पुल पुलिया का अप्रोच पथ पूरी तरह कट गया है। जिससे मार्ग पर बड़े वाहनों का आवागमन टप हो गया है। नायक ने यह भी कहा कि राजधानी रांची में बुधवार को दिनभर हुई भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रही, नामकुम के रियाड़ा गली में नाली निर्माण के दौरान बिजली का तार गिर जाने से दो कुत्तों की करंट लगने से मौत हो गई। यह घटना क्षेत्र में दहशत का कारण बनी रही। उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज की समस्या की शिकायत भी है। कहीं कहीं पेड़ की डाली गिर जाने से बिजली आपूर्ति टप रही, कहीं बिजली आई, लेकिन आंख-मिचौली जारी रही। नायक ने माननीय मुख्य मंत्री से अनुरोध किया कि वे इस प्रकृतिक आपदा से जनता को राहत दिलाने हेतु एक मॉनिटरिंग आयोग राज्य का उपरुत गठन करे राज्यस्तरीय और जिला स्तर पर जिसमें राज्य के सभी उपयुक्त पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, बिजली विभाग, नगर निगम, आपदा प्रबंधन विभाग, एनडीआरएफ के पदाधिकारी शामिल किए जाए और खुद मॉनिटरिंग करे तथा जनता को एक हर जिले में मोबाइल नंबर उस सेल का प्रसारित करे ताकि आम जन सबका जानकारी दे सके और जनता को इस प्रकृतिक आपदा से राहत मिल सके यह सेल पुरे मानचून बरसात तक कार्य करे।

विधानसभा अध्यक्ष ने किया पुस्तक का विमोचन



रांची : झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने गुरुवार को अपने कार्यालय कक्ष में स्थाल परगना के प्रख्यात कवि एवं लेखक घनेश्वर सिंह राय की ओर से रचित काव्य संग्रह उद्गार का औपचारिक विमोचन किया। इस अवसर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि लेखक घनेश्वर की लेखनी में झारखंड के प्रति गहरी संवेदनाएं झलकती हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि कृषि कार्य में व्यस्त रहने के बावजूद उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की है। उनकी साहित्यिक यात्रा प्रेरणादायक है। उन्होंने घनेश्वर सिंह राय की रचनात्मकता और साहित्यिक योगदान की जमकर सराहना की। पुस्तक के लेखक घनेश्वर सिंह राय, जो मूलतः संधाल परगना क्षेत्र से आते हैं। काल कवि के रूप में चर्चित रहे हैं। वे साहित्य और कविता के माध्यम से समाज के समसामयिक सरोकारों को उजागर करते रहे हैं। लेखक ने बताया कि उद्गार एक बहुआयामी काव्य संग्रह है। इसमें कविताओं के साथ-साथ समसामयिक विषयों पर लेख भी शामिल हैं। पुस्तक के द्वितीय अध्याय में प्रकाशित कविता रवि प्रकाश पुंज हैं। इसे विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो को समर्पित किया गया है।

माध्यमिक आचार्य नियुक्ति के लिए आवेदन 27 जून से

रांची : झारखंड के 510 प्लस टू स्कूलों में 1373 माध्यमिक आचार्यों की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया अब 27 जून से शुरू होगी। इस संबंध में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने गुरुवार को आवश्यक सूचना जारी कर संशोधित कार्यक्रम की जानकारी दी है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आगामी 27 जून से 27 जुलाई की मध्य रात्रि तक जमा होंगे। जवकि परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 29 जुलाई की मध्य रात्रि निर्धारित की गयी है। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन का प्रिंटआउट लेने के लिए 31 जुलाई की मध्य रात्रि तक लिंक उपलब्ध रहेगा। समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन के लिए दो अग्रस्त से चार अग्रस्त की मध्य रात्रि तक लिंक उपलब्ध रहेगा।

एक नजर

जमीन के अंदर छिपाकर रखा 19 जिलेटिन बरामद

मरकचो : मरकचो पुलिस के द्वारा जमीन के अंदर छुपा कर रखा गया विस्फोटक पदार्थ गुरुवार को मुख्यालय स्थित ब्लॉक चौक के समीप थाना से महज कुछ ही दूरी सामने जमीन के अंदर दबे मिट्टी से बरामद किया गया। बारिश से मिट्टी हट जाने के बाद शुबह में ग्रामीण के द्वारा विस्फोटक जिलेटिन देखा गया। जिसकी सूचना मरकचो पुलिस को दी गयी। मरकचो थाना के थाना प्रभारी नन्दकिशोर तिवारी, ए एस आई इसराफुल दल बल के साथ स्थल पर पहुंच कर 19 जिलेटिन बरामद किया गया है। इस सम्बंध में थाना प्रभारी ने बताया कि थाना के नजदीकी से जिलेटिन मिलना चिंता का विषय है। जिलेटिन जर्जर अवस्था में पाया गया। इसकी गहन छान बिन की जा रही है। विस्फोटक मलने से पुलिस की भीड़ें तनी हुई है। सुओं के मुताबिक वे विस्फोटक मुख्य रूप से पत्थर खदान में विस्फोट करने में प्रयोग किया जाता है।

नव नियुक्त राजद प्रदेश अध्यक्ष से मिल बधाई दिया बुद्ध नारायण यादव



बोकारो : झारखंड राष्ट्रीय जनता दल के संगठनात्मक चुनाव 2025-28 के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हुरैनाबाद के माननीय विधायक संजय कुमार सिंह यादव से रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में राज्य परिषद सदस्यों की बैठक में मिलकर बोकारो जिला राजद के नेताओं ने गुलदस्ता भेंट कर बधाई शुभकामनाएं दिया। बोकारो जिला अध्यक्ष बुद्ध नारायण यादव ने बधाई देते हुए कहा की प्रदेश अध्यक्ष के कुशल संगठनकर्ता होने के कारण आज दल एक विधायक से चार विधायक पर पहुंची है आशा और उम्मीद है दल आगे भी जन समस्या को प्रमुखता से समाधान करते हुए दल अपने शीर्ष मुकाम पर पहुंचेगी। नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष को मिलकर बधाई देने वालों में प्रदेश महासचिव धनश्याम चौधरी राज्य परिषद सदस्य भाई प्रमोद सिंह राज्य परिषद सदस्य मोहम्मद मनीरुद्दीन राज्य परिषद सदस्य बौदहन यादव युवा राजद प्रदेश महासचिव जितेंद्र नारायण यादव युवा जिला अध्यक्ष संतोष गिरी चास प्रखंड अध्यक्ष अनीश भारद्वाज चंद्रपुरा प्रखंड अध्यक्ष सच्चिदानंद कुमार नरेश यादव आदि शामिल थे।

नालसुंधा स्थित सुर्या अपार्टमेंट से निकल रहा गंदा पानी, स्थानीय लोगों में आक्रोश

चास : नगर निगम क्षेत्र के चाई संख्या 7 अंतर्गत भालसुंधा स्थित सुर्या अपार्टमेंट से निकल रहा गंदा पानी, मल-मूत्र और नाली का ओवरफ्लो स्थानीय निवासियों के लिए गंभीर संकट बन गया है। अपार्टमेंट से बहता यह गंदा पानी न केवल आस-पास के रास्तों को गंदा कर रहा है, बल्कि दुर्गंध और गंदगी के कारण मोहल्ले में सफाईकर्मियों के फेलने का खतरा भी भंडा रहा है। स्थानीय नागरिकों ने चास नगर निगम के अपर नगर आयुक्त एवं सहायक नगर आयुक्त को पुर्व क्षेत्र सभापति लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में ग्रामीण आवेदन पत्र सौंपते हुए स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया है। आवेदन में उल्लेख किया गया है कि गंदे पानी के बहाव से पास के एक खाली लॉट पर कचरे और गंद का ढेर जमा हो गया है, जिससे मच्छरों का प्रकोप भी तेज हो गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है सुर्या अपार्टमेंट के बोचालयों का मल-मूत्र खुले में बहाया जा रहा है, जिससे पूरे इलाके में बबू फैली हुई है और गां रहना मुश्किल हो गया है।

बारिश के बीच जल जमाव को लेकर उपायुक्त ने किया शहर का निरीक्षण

प्रत्युष नवबिहार संवाददाता
बोकारो : जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच उपायुक्त अजय नाथ झा ने गुरुवार को शहर के विभिन्न इलाकों का भ्रमण कर जल जमाव, गरगा डैम की स्थिति और शहरी सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने बारिश की परवाह किए बिना स्वयं मैदान में उतरकर वास्तविक हालात की समीक्षा की और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। मौके पर अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, अनुमंडल पदाधिकारी चास सुश्री प्रंजल दांडा, जिला परिवहन पदाधिकारी वंदन शेजवलकर, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रवि कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी



चास डा. प्रदीप कुमार, अंचलाधिकारी चास दिवाकर दूबे, जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी शक्ति कुमार, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार समेत डैम भी पहुंचे, जहाँ जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी ने जानकारी दी कि डैम का जल स्तर फ्लहाल

खतरे के निशान से नीचे है। निरीक्षण क्रम में डैम की सुरक्षा को लेकर कई कमियाँ उजागर हुईं। डैम के छह में से केवल दो गेट ही कार्यरत हैं और मरम्मत कार्य समय पर नहीं किए गए हैं। उपायुक्त ने इसे गंभीर मामला मानते हुए बीएसएल प्रबंधन एवं डैम की व्यवस्था देख रख अधिकारियों पर नाराजगी जताई। उन्होंने एक सप्ताह के भीतर मरम्मत से संबंधित विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर जिला प्रशासन को समर्पित करने, डैम की संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था, रोशनी, ऑपरेशनल गेट आदि को तत्काल दुरुस्त करने को कहा। इसके लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठन को कहा। निचले इलाकों में अलर्ट मोड, माइकिंग और सुरक्षित स्थल

चिह्नित करें उपायुक्त ने संभावित आपात स्थिति को लेकर पहले से तैयार रहने पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जलस्तर बढ़ता है, तो डैम के गेट खोलने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में निचले इलाकों में रहने वाले नागरिकों को समय रहते सतर्क किया जाए। उन्होंने चास बीडीओ/सीओ को माइकिंग कराकर सूचना देने की बात कही। साथ ही, उनके लिए सुरक्षित स्थल चिह्नित करने और उसे राहत केंद्रों के रूप में तैयार करने को कहा। गरगा नदी किनारे कचरे की स्थिति पर जताई कड़ी नाराजगी उपायुक्त ने शहर के कई हिस्सों में कचरा फैला होने पर कड़ी नाराजगी जताई।

प्रखंड स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ समापन



प्रत्युष नवबिहार संवाददाता
बोकारो : चास प्रखंड का प्रखंड स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन गुरुवार को मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में किया गया। प्रतियोगिता के तीसरे दिन अंडर 17 बालक वर्ग का मैच खेला गया। जिसमें अंडर 17 बालक वर्ग में कुल पांच स्कूल की टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच राजकीय उच्च विद्यालय लकड़ाखंड बनाम जिला राम रुद्र उच्छृट विद्यालय चास के बीच खेला गया। जिसमें राजकीय उच्च विद्यालय लकड़ाखंड ने

जिला राम रुद्र उच्छृट विद्यालय चास को शून्य के मुकाबले तीन गोल से पराजित कर टीम को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया। इसके पूर्व बीपीओ वेंकटेश व बोकारो जिला फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव महेंद्र प्रसाद ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल मैच में हाई स्कूल बाधाडीह की टीम ने हाई स्कूल चिकसिया को शून्य के मुकाबले 1 गोल से हराकर फाइनल में स्थान बनाया। जबकि प्रतियोगिता के दूसरे सेमीफाइनल मैच में राजकीय प्लस 2 उच्च विद्यालय लकड़ाखंड की टीम ने पीएमश्री पंचानन राजबाला प्लस 2 हाई स्कूल सतपुरा को शून्य के मुकाबले 4 गोल से हराकर प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश किया।

ग्रिजली विद्यालय में प्रेरणादायी 'पेप टॉक' का हुआ आयोजन

प्रत्युष नवबिहार संवाददाता
कोडरमा : ग्रिजली विद्यालय के सभागार में वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणादायी 'पेप टॉक' सत्र का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर मुख्य वक्ता रहीं ग्रिजली विद्यालय की छात्रा निष्ठा भदानी, जिन्होंने सत्र 2024-25 में वाणिज्य संकाय को जिला टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया कार्यक्रम में कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की गरिमा को विद्यालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश गुप्ता, वाणिज्य संकाय के समन्वयक जितेंद्र चौधरी तथा अन्य शिक्षकगण की उपस्थिति ने और बढ़ाया। कार्यक्रम का संचालन कक्षा 12वीं की छात्रा काशरीना मदनिका ने किया, जबकि



प्रिफेक्ट आशी कुमारी ने पुष्पगुच्छ भेंट कर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। अपने प्रेरणास्पद संबोधन में निष्ठा भदानी ने बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेकर अपने अनुभव विद्यार्थियों से साझा किए। उन्होंने कहा कि सफलता के लिए रणनीति की गुणवत्ता पर जोर देना चाहिए, न कि केवल घंटों की गिनती। उन्होंने नियमितता, निरंतरता और आत्म-अध्ययन को

सफलता की कुंजी बताया तथा मोबाइल फोन के सीमित और शैक्षणिक उपयोग की सलाह दी कार्यक्रम में एक प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें आशी कुमारी, आर्यन, ऋद्धि जैन, गितांश दुग्गड़, स्वर्णम राज सहित अन्य विद्यार्थियों ने निष्ठा से परीक्षा की रणनीति, तनाव प्रबंधन तथा लक्ष्य के प्रति समर्पण जैसे विषयों पर प्रश्न पूछे।

मारवाड़ी युवा मंच ने रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से किया रक्तदान शिविर का आयोजन



प्रत्युष नवबिहार संवाददाता
कोडरमा : विश्व रक्तदाता पखवाड़ा के तहत गुरुवार को मारवाड़ी युवा मंच की महिला समुह प्रेरणा शाखा ने रेड क्रॉस सोसाइटी का आयोजन किया। अग्रसेन भवन में आयोजित शिविर में कुल 20 रक्तदाताओं ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। शिविर के उद्घाटन प्रेरणा शाखा की अध्यक्ष सारिका लड्डा, कार्यक्रम की परिचयना निदेशक शैलजा केडिया एवं प्रियंका अग्रवाल, मंडल (वन) के सहायक मंत्री श्रेया केडिया व रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष अजीत

वर्णवाल, सचिव गौतम पाल, उपाध्यक्ष डॉ सागर मणि कोषाध्यक्ष मुन्ना सुल्लानिया ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर रेड क्रॉस के अध्यक्ष अजीत बरनवाल ने कहा कि रक्तदान करने से दिल की दिल की बीमारियों और स्ट्रोक के खतरे को कम माना जाता है। उन्होंने सभी सामाजिक संगठनों युवाओं एवं आमजन से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान कर इस मानवता की सेवा में सहभागिता बने प्रेरणा शाखा के अध्यक्ष सारिका लड्डा ने रक्तदाताओं के उत्सव भविष्य की कामना करते हुए उनके इस नेक कार्य के लिए

बहुत-बहुत आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान एक महान नेक कार्य है, जो किसी जरूरत मंद की जान बचा सकता है। वही कार्यक्रम की परिचयना निदेशक शैलजा केडिया एवं प्रियंका अग्रवाल व मंडल वन की सहायक मंत्री श्रेया केडिया ने कहा कि रक्तदान महानदान है। खून में आयरन की ज्यादा मात्रा दिल के दौर के खतरे को बढ़ा सकता है। आपका एक यूनिट रक्त किसी की जिंदगी बचा सकता है। इसके पश्चात प्रेरणा शाखा के पदाधिकारियों ने सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र व रेड क्रॉस के पदाधिकारियों को पौधा देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की सफल आयोजन में शाखा की सचिव आकृति चौधरी, उपाध्यक्ष शीतल पोद्दार, सहसचिव प्रिया अग्रवाल, नेहा हिसारिया, दीपा गुप्ता व बबिता केडिया सहित रेड क्रॉस के टेक्नीशियन अमित कुमार अधिका सराहनीय योगदान रहा।

डॉ अशोक अभिषेक को 'हिंदी अलंकरण' सम्मान से किया गया सम्मानित

प्रत्युष नवबिहार संवाददाता
झुमरी तिलैया : अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला मंच, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा काहिरा, मिश्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समारोह में डॉ. अशोक अभिषेक को 'हिंदी अलंकरण सम्मान' से सम्मानित किया गया। संस्कृति, साहित्य, शिक्षा एवं ललित कलाओं के उन्नयन एवं मानवीय मूल्यों के संवर्धन के लिए वैश्विक स्तर पर निरंतर समर्पित भाव से किय जा रहे सृजनात्मक कार्यों के लिए डॉ. अभिषेक को इस सम्मान से अलंकृत किया गया है। इससे पूर्व इंडोनेशिया में डॉ. अभिषेक को 'सारस्वत सम्मान' से भी सम्मानित किया जा चुका है। डॉ. अभिषेक शिक्षा-शास्त्र विभाग, जगन्नाथ जैन महाविद्यालय में कार्यरत हैं और फिलहाल प्रतिनिधुक्ति पर चतरा महाविद्यालय में अपना योगदान दे रहे हैं। डॉ. अभिषेक देश की प्रतिष्ठित 'नागरी लिपि परिषद' के झारखंड राज्य के प्रभारी हैं और देवनागरी लिपि एवं हिंदी के लिए समर्पित भाव से लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं। हाल ही में इनके मार्गदर्शन



एवं नेतृत्व में जगन्नाथ जैन महाविद्यालय के 24 छात्र छात्राओं ने अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, जिसके लिए नागरी लिपि परिषद से सभी को प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुए। इनमें से एक छात्र ने अखिल भारतीय स्तर पर छठा स्थान प्राप्त किया था। डॉ. अभिषेक के इस उपलब्धि से जिले के बुद्धिजीवी एवं शिक्षा से जुड़े लोगों में हर्ष व्याप्त है। महाविद्यालय, विभिन्न संगठनों एवं जिले के प्रबुद्धजन ने उनकी उपलब्धि पर इन्हें बधाई दिया है। बधाई देने वालों में भारत विकास परिषद के अध्यक्ष अरुण कुमार ओझा, सचिव विमल कुमार पच्चीसिया, रामप्रवेश पांडे, छोटेलाल पांडे, प्रोफेसर कैलाश राणा आदि के नाम शामिल हैं।

कोडरमा जिला अन्तर्गत सभी अंचलों में लंबित दाखिल-खारिज मामलों का हुआ निष्पादन

कैंप में आकर राजस्व से संबंधित मामलों का करार्यें समाधान : उपायुक्त

प्रत्युष नवबिहार संवाददाता
कोडरमा : कोडरमा जिले में दाखिल-खारिज के कई मामले 30 दिनों से अधिक समय से लंबित पाए गए हैं, जो न केवल जनहित के खिलाफ है, बल्कि झारखंड सेवा गारंटी अधिनियम 2005 का भी उल्लंघन है। इस पर सज्ञान लेते हुए उपायुक्त ऋतुराज के निर्देश पर जिले के सभी अंचलों में दाखिल-खारिज, राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार से संबंधित लंबित मामलों के शीघ्र समाधान हेतु विशेष राजस्व कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। राजस्व शिविर का निरीक्षण



उपायुक्त ऋतुराज, अनुमंडल पदाधिकारी रिया सिंह, और अपर समाहर्ता पूनम कुजुर ने अंचल कार्यालय में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर में आए आवेदनों का शीघ्र और निष्पक्ष निपटारा करने का निर्देश दिया। जनता से अपील उपायुक्त ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे शिविर में उपस्थित होकर अपने राजस्व संबंधित मामलों का समाधान कराएं। आज का निष्कर्ष आज के शिविर में कुल 172 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 78 आवेदनों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया।

संक्षिप्त खबरें
वृद्धा पेंशन योजना का लाभ मिला करमा पंचायत की रेखा देवी को



कोडरमा : कोडरमा जिले के करमा पंचायत अंतर्गत पुतो गांव की निवासी रेखा देवी ने हाल ही में आयोजित जनता दरबार में अपनी खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन दिया था। उन्होंने उपायुक्त ऋतुराज से गुहार लगाई कि उन्हें वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिया जाए, जिससे वे सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। उपायुक्त ऋतुराज ने मामले का सज्ञान लेते हुए तत्क्षण सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश दिया। निदेशानुसार जांचोपरांत रेखा देवी का वृद्धा पेंशन स्वीकृत किया गया। उक्त स्वीकृति पत्र स्वयं उपायुक्त ऋतुराज द्वारा रेखा देवी को प्रदान किया गया, जिससे उन्होंने संतोष और कृतज्ञता व्यक्त की।

जयनगर अंचल में तीन दिवसीय राजस्व सेवा शिविर का हुआ आयोजन



जयनगर : कोडरमा उपायुक्त कोडरमा ऋतुराज के दिशा-निर्देशन में जयनगर अंचल परिसर में तीन दिवसीय राजस्व सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को दाखिल-खारिज, शुद्धिपत्र निर्गत, ऑनलाइन लगान रसीद निर्गत, पारिवारिक सूची, भूमि जांच प्रतिवेदन, परिशोधन, ऑनलाइन जमाबंदी सुधार, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, एहर प्रमाण पत्र, तत्काल जाति, आवासीय, आय जैसी आवश्यक सेवाएं एक ही स्थान पर, त्वरित और पारदर्शी तरीके से प्रदान करना रहा। शिविर में अंचलाधिकारी गौतम कुमार की निगरानी में अंचल निरीक्षक सनोज कुमार, हल्का कर्मचारी तलेबर राम, आलोक शर्मा, रामदेव हांसदा, उमेश कुमार एवं अमीन आनंद कुमार की सक्रिय भागीदारी रही। प्रत्येक कार्य के लिए विषयवार पृथक स्टॉल की व्यवस्था की गई थी, जिससे आवेदकों को सुविधा हो और समय की बचत हुई। ऑनलाइन सेवाओं के लिए कंप्यूटर ऑपरैटर कन्हाई कुमार एवं अभिषेक पांडे की टीम इंटरनेट और सिस्टम के साथ मौके पर मौजूद रही, जिससे ऑनलाइन दाखिल-खारिज, एलपीसी निर्गत, रसीद निर्गत, जाति आवासीय आय जैसी डिजिटल सेवाएं तत्क्षण उपलब्ध कराई गईं। शिविर के दौरान मुख्य स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए अंचलाधिकारी गौतम कुमार ने सभी कर्मियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक आवेदन का निष्पादन यथाशीघ्र और बिना किसी अन्याय के देरी के किया जाए, जिससे आम जनता का विश्वास और प्रशासन के प्रति भरोसा बना रहे। अंचल कार्यालय के प्रधान लिपिक गिरधारी प्रसाद, लिपिक बिनोद कुमार, रंधीर कुमार एवं अन्य कर्मचारियों ने शिविर संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिविर में 130 से अधिक ग्रामीणों ने विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन जमा किए, जिनमें से अधिकांश का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। शिविर की प्रमुख विशेषताएं :

डीएवी 8 में पी.एन. पणिवकर के सम्मान में रीडिंग कॉर्नर का किया उद्घाटन एवं रीडिंग डे मनाया



बोकारो : भारत के पुस्तकालय आंदोलन के जनक स्वर्गीय पी.एन. पणिवकर को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए, हमारे विद्यालय डीएवी इस्पत पब्लिक स्कूल बोकारो स्टील सिटी सेक्टर 8/बी में शिक्षक प्रभारी मौसमी मलिक द्वारा आज पुस्तकालय में एक रीडिंग कॉर्नर का उद्घाटन किया और आधिकारिक तौर पर रीडिंग डे का शुभारंभ किया। यह नवनिर्मित रीडिंग कॉर्नर, एक शांत और आकर्षक स्थान है, जिसका उद्देश्य छात्रों में पढ़ने के प्रति प्रेम को बढ़ावा देना और शांत अध्ययन और साहित्य की खोज के लिए एक आरामदायक वातावरण प्रदान करना है। विभिन्न विधाओं की पुस्तकों के विविध संग्रह से सुसज्जित, यह कॉर्नर छात्रों के लिए बौद्धिक विकास और कल्पनाशील यात्रा को गति प्रदान करेगी। सभा को संबोधित करते हुए, शिक्षक प्रभारी श्री मति मौसमी मलिक ने युवा दिमागों को आकार देने और उन्हें ज्ञान से सशक्त बनाने में पढ़ने के सर्वोच्च महत्व पर जोर दिया साथ ही कहा कि पी.एन. पणिवकर का सपना पढ़ने की क्रांति को प्रज्वलित करना था, और आज, जब हम इस रीडिंग कॉर्नर को समर्पित करते हैं और रीडिंग डे मनाते हैं, तो हम खुद को उस महान उद्देश्य के लिए फिर से प्रतिबद्ध करते हैं।

बोकारो मृत कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि और प्रबंधन के बीच हुई बैठक



बोकारो : मृत कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि एवं मंडल सीजीएम,जी.एम.आर.(डब्ल्यू) से बीते बुधवार को श्रमिक संघ के मंडल प्रतिनिधि के साथ महिला संघ के चार सूत्री मांग पत्र पर चर्चा की गई, जिस पर चर्चा की गई कि श्रमिक संघ ने प्रबंधन को कुछ समूहों पर हस्ताक्षर करने के लिए आमंत्रित किया है गया, लोको ऑपरैटर, बीएफ.ऑपरैटर, कोक ओवन बी)ऑपरैटर, क्रैन ऑपरैटर, एस पी ओ, रिगर, फिटर, इलेक्ट्रिकन, टर्नर, एम टी ओ में भाग लिया है, जो कि भारी कमी के साथ है। हुई सहमति बनी एवं बैठक में तय महिना के फिस्केल पन्डह दिनों में सी.जी.एम. की साथ बैठक हुई जिसमें समय सिमा के प्रतिबद्ध युवाओं के संबंधित कार्यों की समीक्षा की जाएगी पर प्रबंधन के आग्रह को 20 जून को होने वाली पैल्ल यात्रा मार्ग को तत्काल प्रभाव से वैज्ञानिक संघ द्वारा विभाजित किया जा रहा है।

उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक

प्रत्यूष नवबिहार संवाददाता

रामगढ़ : गुरुवार को उपायुक्त, रामगढ़ फैंज अक अहमद मुमान की अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक रामगढ़ अजय कुमार की उपस्थिति में समाहरणालय सभाकक्ष में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान सर्वप्रथम जिला खनन पदाधिकारी निशांत अभिषेक के द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध किए जा रहे कार्यों का उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक सहित अन्य को पीपीटी के माध्यम से विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। बैठक के दौरान जिला खनन पदाधिकारी द्वारा



रामगढ़ जिला अंतर्गत चितरपुर प्रखण्ड के भुचुंगडीह क्षेत्र में स्थित अवैध मुहानों में लगी आग की जानकारी दी गई जिस पर उपायुक्त के द्वारा पुलिस अधीक्षक सहित

अन्य अधिकारियों के साथ गंभीरता पूर्वक चर्चा की गई। आग पर काबू पाने को लेकर बैठक के दौरान उपायुक्त ने सीसीएल महाप्रबंधक एवं अंचल अधिकारी

चितरपुर सहित अन्य अधिकारियों को आग पर काबू पाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने विगत कुछ समय में अवैध खनन पर रोक लगाने हेतु किए गए कार्यों की सराहना करते हुए और भी प्रभावी तरीके से अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा खनन टास्क फोर्स की पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में किए गए कार्यों की जानकारी ली गई। इस दौरान उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा अवैध मुहानों को बंद करने के तहत किए गए कार्यों की

जानकारी लेने के क्रम में उपायुक्त ने कहीं से भी अवैध मुहानों से खनन होने संबंधित सूचना प्राप्त होने पर त्वरित रूप से उसे अच्छी तरह बंद कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक सुनिश्चित करने एवं अवैध मुहानों की अच्छी तरह से डोजरिंग करने को लेकर उपायुक्त ने सभी संबंधित परियोजनाओं के महाप्रबंधकों एवं एरिया सिक्योरिटी ऑफिसर्स को कार्यों पर विशेष ध्यान देने एवं अवैध मुहानों से किसी भी तरह का कोई भी खनन कार्य न होने देना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

42वां वार्षिक आम सभा संपन्न



प्रत्यूष नवबिहार संवाददाता
सिल्ली : हिंडालको एलुमिना क्लब में हिंडालको कर्मचारी सहकारिता साख सहयोग समिति लिमिटेड मुरी का 42वां वार्षिक आमसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संदीप आर पाटिल एवं संचालन देबू माझी ने किया। कार्यक्रम से मुख्य रूप से हिंडालको एच आर अरुण राय उपस्थित थे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 42 वां वार्षिक आम सभा में, सदस्यों ने समिति के कामकाज की समीक्षा की और भविष्य की योजनाओं पर विचार-विमर्श किया। यह सभा समिति के सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जहां वे अपने विचारों और सुझावों को साझा कर

सकते हैं। इस सभा में, सदस्यों ने समिति के भविष्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। इन निर्णयों में समिति के विकास और सदस्यों के कल्याण के लिए योजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संदीप आर पाटिल ने समिति के अध्यक्ष ने समिति की लेखा-जोखा का अंकक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 तक विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि हिंडालको कर्मचारी सहकारिता साख सहयोग समिति लिमिटेड की 42 वां वार्षिक आम सभा एक सफल कार्यक्रम था, जिसने सदस्यों को एक साथ लाया और समिति के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखी। वही समिति के सचिव महावीर महतो ने

कहा कि अपने सदस्यों की विभिन्न आवश्यकतों की पूर्ति करते आ रहे हैं एवं उनके विपरीत स्थितियों में भी आर्थिक कठिनाईयों का समाधान करने के लिए प्रयासरत हैं। जैसे आकस्मिक निधन, विवाह आदि स्थितियों में हमने पूर्णतः सहयोग करने का कोशिश किए हैं। लाभांश का वितरण हम बहुत जल्द ही करने जा रहे हैं। इन तीनों वर्षों में हमने नौ प्रतिशत की दर से लाभांश को वितरण करेगें एवं एक आकर्षक उपहार भी आप लोगों के बीच वितरित करेगें। समिति में 25 वर्ष तक सदस्य बनने पर 38 सदस्यों को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम से पूर्व अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर समिति के उपाध्यक्ष अभिजीत सेन, हिंडालको सिस्टम हेड अतुल श्रीवास्तव, प्रोडक्शन हेड अरुण प्रशांत बॉस, ट्रेडिन्कल हेड सागर एस पीडित, संजय कुमार, प्रवीण कुमार महतो समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।

उपायुक्त के आदेश के बावजूद उसुर्लाईन कॉन्वेंट बालिका उच्च विद्यालय खुला रहा



प्रत्यूष नवबिहार संवाददाता
मुरी : रांची जिले में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए रांची जिला अंतर्गत संचालित सभी कोटि के सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त एवं सभी निजी विद्यालयों को 19 जून दिन गुरुवार को बंद रखने का आदेश रांची उपयुक्त द्वारा जारी किया गया था परंतु उनके आदेश का धना बताते हुए उसुर्लाईन कॉन्वेंट बालिका उच्च विद्यालय मुरी के विद्यालय प्रबंधन के द्वारा 19 जून दिन गुरुवार को विद्यालय संचालित किया गया

जिससे विद्यार्थी काफी परेशान हो गये। इधर स्कूल प्रबंधन की मनमानी से अभिभावक भी काफी परेशान हैं। वहीं विद्यालय प्रबंधन द्वारा निर्धारित समय से पूर्व ही छुट्टी कर दिया गया और विद्यार्थियों को स्कूल परिसर से बाहर भेज दिया गया। समय से पूर्व छुट्टी कर देने के कारण विद्यार्थियों का वहां भी नहीं पहुंच पाया जिससे विद्यार्थी भारी बारिश में भीगते हुए अपने घर पहुंचे। इस गैर जिम्मेदाराना रवैया से अभिभावकों भी क्षुब्ध हैं।

आजसू पार्टी 22 जून स्थापना दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाएगी



प्रत्यूष नवबिहार संवाददाता
अनारड़ा : आजसू पार्टी का नामकुम टिपुदाना ग्रांसरी मार्च में 22 जून स्थापना दिवस को लेकर नामकुम प्रखंड सचिव राजू उरांव की अध्यक्षता में बैठक रखा गया मुख्य अतिथि के रूप में आजसू पार्टी महिला जिला अध्यक्ष वीणा कुमारी ने कहा 22 जून को आजसू पार्टी बलिदान दिवस के रूप में मनाएगी जो राज्य स्तर पर हरिवंश दाना भगत इनडोर स्टेडियम खेलगांव में मनाया जाएगा जो झारखंड के वीर शहीदों को समर्पित होगी। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में आजसू पार्टी के क्षेत्रीय सचिव सह पूर्व प्रत्याशी पारसनाथ उरांव ने कहा झारखंड में लुट और झूठ पर

चल रहे हेमंत सोरेन सरकार झारखंडियों को 1932 खतियान और पेशा कानून को लेकर खला जा रहा है जो झारखंड के वीर शहीदों का अपमान है इसलिए सरकार को उसकी असलियत दिखाने के लिए खिजरी विधानसभा से लोग बढ़ चढ़कर सभी पंचायत, ग्राम प्रभारी, पंचायत प्रभारी एवं पार्टी के सभी सदस्य हजारों लोग दल बल के साथ शामिल होंगे। इसको लेकर नामकुम प्रखंड कमेटी की एक तैयारी बैठक सम्पन्न हुआ। इस मौके पर महानगर वरीय उपाध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, जिला सचिव कुदरत शेख, मुकेश नायक राजू टोपां, छोटू नायक, राजा नायक, सतीश तिकी, मधुसिंह बिनझिया, मिनाज अंसारी, अनीश नायक, राम उरांव, गांधी उरांव, बालिग लोहारा, सूरज सिंह, गाजू नायक, आदि लोग मौजूद रहे।

जल संकट झेल रहे बंगाली टोला में बहा उम्मीद का पानी : भाजपा नेता धनंजय कुमार

प्रत्यूष नवबिहार संवाददाता
रामगढ़ : विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बंगाली टोला की जनता को आखिरकार 10 वर्षों से चली आ रही भीषण जल संकट की समस्या से राहत मिली। यह मुमकिन हो सका भाजपा नेता एवं सांसद प्रतिनिधि धनंजय कुमार पुटूस जी के अथक प्रयासों और गंभीर पहल के कारण। हाल ही में धनंजय कुमार पुटूस के द्वारा आयोजित जनता दरबार में बंगाली टोला के नागरिकों ने सामाजिक संगठन रामगढ़ बचाओ संघर्ष समिति के सक्रिय सदस्य कैलाश महतो के माध्यम से इस जल संकट की समस्या को पुटूस जी कौन अवगत कराया था। इस मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए श्री पुटूस ने इसे अपनी प्राथमिकता में रखा और हजारीबाग के लोकप्रिय सांसद



मनीष जायसवाल जी के मार्गदर्शन में छावनी परिषद से त्वरित समन्वय कर कार्यवाही आरंभ करवाई। धनंजय कुमार पुटूस ने कहा: आज यह बताते हुए संतोष और गर्व का विषय है कि बंगाली टोला में पानी की समस्या के समाधान हो गया है। कुछ कमी बची हुई है उसे भी जल्द ठीक करा दिया जाएगा। वर्षों से बूढ़-बूढ़ पानी के लिए तरस रही जनता के चेहरों पर अब मुस्कान है। स्थानीय नागरिकों ने इस ऐतिहासिक पहल के लिए धनंजय

कुमार पुटूस का माल्यार्पण एवं धन्यवाद ज्ञापन कर स्वागत किया। यह विकास सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि एक दशक की पीड़ा का अंत है, जो दशतां है कि जब नेतृत्व संवेदनशील और सक्रिय हो, तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। श्री पुटूस ने आगे कहा: जनता की आवाज ही मेरी प्राथमिकता है। समस्याएं चाहे कितनी भी पुरानी क्यों न हों, समाधान अब दूर नहीं है।

प्रतिपक्ष के नेता एवं कांग्रेस के सर्वभौम नेता राहुल गांधी जी के 55 वां जन्मदिन मनाया



प्रत्यूष नवबिहार संवाददाता
कोडरमा : जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा झुमरी तिलैया स्थित इमाम क्लबिनक परिसर पर एक सदा सान्नाह अर्पण कर अपने नेता को शुभकामना संदेश प्रेषित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला

के बीच फल एवं मिठाई वितरण कर गांधी के उत्तम स्वास्थ्य एवं उज्ज्वल भविष्य का कामना किया। सहाय ने कहा कि 2029 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत हासिल होगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में अपना योगदान देंगे। नगर कांग्रेस अध्यक्ष प्रभात राम ने कहा कि राहुल गांधी के संघटन सशक्तिकरण कार्यक्रम को झारखंड सहित झुमरी तिलैया नगर में सफल करना हर कांग्रेसी का कर्तव्य है। राहुल गांधी के जन्मदिन कार्यक्रम में मुख्य रूप से युवा नेता सहूद खान, जहीर उद्दीन, नीरज कुमार, मोहम्मद तैयज, सुरेंद्र शर्मा, शाहजहां, धिरेन्द्र गुप्ता, सूरज कुमार अनिल रामा मुकेश दास, खोखन कुमार सहित अन्य उपस्थित रहे।

लगातार बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में जन जीवन अस्त व्यक्त

पटमदा : बोड़ाम और पटमदा प्रखंड में लगातार बढ़ती बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की समस्या बढ़ गई है। किसानों को जहां धान का बीज डालने में समस्या हो रही है। वहीं सब्जी की खेती करने वाले किसानों के सब्जी की उपज को भी नुकसान हुआ है। लगातार बारिश के कारण खेतों में लगाव पानी भर चुका है। जिस कारण धान की खेती के लिए जो किसान बीज नहीं डाल सके हैं। उनके लिए बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। वहीं बोड़ाम के कुईयानी गांव के सरला सिंह का घर बुधवार की बारिश से गुरुवार की सुबह करीब पांच बजे ढह गया। जिसमें घर के अंदर सो रही सरला सिंह की दो बेटी भगवती सिंह और प्रिया सिंह मिट्टी के घर के धसने से दिवाल से दब गईं।



कार्यालयक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण विकास विशेष
प्रमण्डल, लातेहार
Email- rdsd.latehar@rediffmail.com
निविदा रद्द करने संबंधी सूचना
इस कार्यालय द्वारा आमंत्रित अति अल्पकालिन ई निविदा सं. EE/RDS/LATEHAR/5/2025-26 जिसका PR NO- 352223 (Rural Development)25-26*D दिनांक -14-05-2025 को प्रकाशित हुई थी। इस सूचना को अपरिहार्य कारणों से रद्द किया जाता है।
कार्यालयक अभियंता
ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल,
लातेहार।
PR.NO.355511 Rural Development(25-26):D

सर्प दश से आठ वर्षीय बच्चे की मौत

खूंटी : जरियागढ़ थाना क्षेत्र के कटसेमला गांव में आठ साल के बबलू मुंडा को सोते समय सांप ने उसके हाथ में काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गयी। घटना देर रात बुधवार की है। जानकारी के अनुसार बबलू अपने घर पर बिस्तर में सोया हुआ था। उसी दौरान किसी जहरीले सांप ने उसे काट लिया। आनन-फानन में बबलू को सदर अस्पताल खूंटी ले गए, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बबलू के पिता पैका मुंडा ने बताया कि बबलू रात में बिलकुल स्वस्थ था और रोज की तरह खाना खाकर सोया था। रात में अचानक वह बेवैन हो गया और उसके मुंह से झाग निकलने लगे।

पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड जगुआर (एस0टी0एफ0) का कार्यालय, रांची की।
निविदा आमंत्रण सूचना
(सुराणा संख्या-02/2025-26)
स्वत्वधारण को सुचित किया जाता है कि झारखण्ड जगुआर (एस0टी0एफ0) के लिए वित्तु सेट के संचालन हेतु 12 Volt 13 Plate Battery (100AH) ख़र करने हेतु निम्नो वर्ष 2025-26 के लिए निविदा आमंत्रित किया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में इच्छुक स्थानीय अधिभूत परम्पतिकर्ता/अधिभूत विक्रेता सीलबंद लिफाफे में अपना निविदा अओहस्तासरी के कार्यालय कार्य निम्न में समर्पित करेंगे।
1. निविदादाता का नाम
2. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय
3. निविदा खोलने की तिथि एवं समय
4. निविदा जमा करने का स्थान
पुलिस महानिरीक्षक, जगुआर (एस0टी0एफ0), रांची।
02/07/2025 रात 7-17:00 बजे।
03/07/2025 सन 4:00 प्:00 11:00 बजे।
- पुलिस महानिरीक्षक, जगुआर (एस0टी0एफ0) का कार्यालय, रांची, झारखण्ड।
निविदा में भाग लेने का शर्त निम्नवत है:-
1. दस्तावेजों में ऐसे स्थानीय अधिभूत परम्पतिकर्ता/ विक्रेता/अधिभूत विक्रेता निविदा दे सकते हैं, जो झारखण्ड राज्य में वाणिज्यिक रूप में निर्धारित हो।
2. बेट्टी की आ पूरते कार्यदेश को 03 (तीन) दिन के अन्दर करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा को राज्य GST प्रमाण पत्र एवं PAN कार्ड की सत्य सत्यापित प्रतियां एवं दो वर्षों (पिचोती वरी) का अल्पकर रिटर्न संलग्न होना आवश्यक है।
4. निविदा में निवेशक (अधिभूतकर्ता)/अधिकृत एजेंट भाग लेने एवं अपने फर्म को निवेशक नाम, पत्तान, पता E mail ID एवं मोबा नम्बर के साथ समर्पित करना आवश्यक है।
5. निविदा खोलने के समय निविदादाता स्वयं या अपने प्रतिनिधि को रूख सकते हैं।
6. स्वीकृत/सफल कर्म द्वारा समय पर बेट्टी आ पूरते नहीं करने की परिस्थिति में उतरी दर पर दूसरे फर्म से बेट्टी क्रय किया जा सकेगा।
7. दस्तावेज वगैरें लागू की बाजार दर के अनुसार होनी चाहिए।
8. पुलिस विभाग में नूत में बेट्टी आ पूरते से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/दस्तावेज समर्पित करने की स्थिति में प्राथमिकता दी जाएगी।
9. पुलिस अधीक्षक (प्रशा), जगुआर (एस0टी0एफ0), रांची को यह अधिकार सुरक्षित है कि बिना कारण बताए एक या एक से अधिक या सभी निविदाओं को अधिक या पूर्ण रूप से अस्वीकृत कर दें।
पुलिस अधीक्षक (प्रशा),
जगुआर (एस0टी0एफ0) रांची।
PR 355421 (Police) 25-26 (D)

Table with 4 columns: Sl. No, Name of the Candidate, Age, and Remarks. It lists various candidates for a recruitment process, including their names, ages, and specific remarks or conditions.

एक नजर

रेलवे स्टेशन से बरामद अज्ञात युवक के शव का 72 घंटे बाद भी नहीं हुई पहचान
साहिबगंज: रेल थाना क्षेत्र के साहिबगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 व 4 के बीच से बीते दिनों 16 जून की सुबह 9 बजे एक अज्ञात युवक का शव सिर धड़ से अलग बरामद करने के बाद सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद पहचान होने तक के लिए सुरक्षित रखवा दिया था। जहां 72 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई भी परिजन सामने नहीं आने पर गुरुवार को रेल थाना क्षेत्र की पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। उधर मामले को लेकर रेल थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस यूडी कांड संख्या दर्ज करते हुए पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।

दहेज प्रताड़ना मामले में एक आरोपी को पुलिस किया गिरफ्तार



साहिबगंज/उधवा: राधानगर पुलिस ने थाना क्षेत्र के दक्षिण पियारपुर गांव से दहेज प्रताड़ना मामले के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसे गुरुवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पीड़िता महिला अंगुरा बीबी ने दहेज प्रताड़ना और दहेज नहीं देने पर पति द्वारा दूसरी शादी करने के मामले में थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आवेदन में आरोप लगाया था कि उसकी शादी गांव में मो रफीकुल शेख के साथ करीब 10 वर्ष पूर्व हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद उसके पति मो रफीकुल शेख, इरशाद शेख, आसेमा बीबी व रुबाना बीबी ने मिलकर दहेज के रूप में तीन लाख रुपए का दवाब बनाते लगा था। महिला के द्वारा विरोध करने पर उसके साथ शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। बातों बात पर महिला के साथ ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की। दहेज नहीं देने पर उसके पति ने दूसरी शादी रचा ली है। पीड़िता का आरोप था कि उसकी सौतन ने उसके बच्चों के खाने की चीज में जहरीली पदार्थ देकर जान मारने की कोशिश की थी। पीड़िता अंगुरा बीबी के बयान पर बार लोगों के विरुद्ध कांड संख्या 41/25 दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी घर से फरार हो गया था। वहीं पुलिस को सूचना मिली की आरोपी घर में देखे गए हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

कोटालपोखर को अलग प्रखंड बनाने को लेकर सर्वसम्मति से पारित

साहिबगंज: जिले को जल्द ही एक नया 10वां प्रखंड मिलने जा रहा है। कोटालपोखर को अलग प्रखंड बनाने की प्रक्रिया को लेकर कवायद तेज हो गई है। गुरुवार को जिला परिषद अध्यक्ष मोनिका किस्कू की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड की विशेष बैठक में कोटालपोखर को प्रखंड बनाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। डीडीसी सतीश चंद्रा ने बताया कि हाट-बाजार की बंदोबस्ती में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए भी जरूरी संशोधन किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में इस विषय पर जिला परिषद से प्रस्ताव भेजा गया था। अब बरहरवा प्रखंड से कुल 10 पंचायतों को अलग कर कोटालपोखर को नया प्रखंड बनाए जाने का प्रस्ताव है। डीडीसी हेमंत सती के निर्देश पर बरहरवा बीडीओ ने 18 जून को सभी ग्राम पंचायतों के मुखियाओं को 19 जून 2025 को विशेष आम सभा आयोजित करने का निर्देश दिया था।

हूल दिवस एवं मुख्यमंत्री आगमन को लेकर डीसी ने की समीक्षा बैठक

प्रत्यूष नवबिहार संवाददाता
साहिबगंज: आगामी हूल दिवस के सफल आयोजन एवं मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर आज समाहरणालय स्थित सभागार में डीसी हेमंत सती की अध्यक्षता में एक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा, परियोजना निदेशक आईटीडीए संजय कुमार दास, सिविल सर्जन डॉ. प्रवीण कुमार संध्यालिया, जिला कृषि पदाधिकारी प्रमोद एक्का, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी चित्रा यादव, जिला परिवहन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार चौधरी, जिला योजना पदाधिकारी अनुप



कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी ज्युनु कुमार मिश्रा, वरीय अधिकारीगण एवं प्रखंड विकास पदाधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में हूल दिवस समारोह को गरिमा एवं ससमय रूप से सम्पन्न कराना है, साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित

कि सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जाएं तथा आपसी समन्वय बनाकर कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए टेंट व पंडालों को वाटरप्रूफ बनाया जाए ताकि कार्यक्रम में किसी प्रकार की व्यवधान उत्पन्न न हो। **मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर विशेष सतर्कता** डीसी ने बताया कि हूल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन प्रस्तावित है। ऐसे में उनकी सुरक्षा, स्वागत, मंच व्यवस्था, आमजन की बैठने की सुविधा, मीडिया कवरेज, एलईडी स्क्रीन, टेलीप्रॉम्प्टर आदि सभी पहलुओं पर बारीकी से ध्यान देने की आवश्यकता है। उपायुक्त ने

संबंधित विभागों को उद्घाटन व शिलान्यास हेतु चिन्हित योजनाओं से संबंधित सभी दस्तावेजी प्रक्रियाएं पूर्ण करने का निर्देश दिया। **भोगनाडीह पार्क की विशेष सफाई और सजावट के निर्देश** कार्यक्रम स्थल भोगनाडीह पार्क की सजावट एवं समुचित व्यवस्था को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए। डीसी ने कहा कि यह स्थल शहीद वीर सिध्दो-कान्हू की धरती है, अतः इसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए हर व्यवस्था सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सम्मानजनक स्वरूप में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम जनसंवाद एवं सेवा वितरण का भी अवसर है, जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

सुब्रतो कप फुटबॉल : अंडर 17 बालक में +2 हाई स्कूल, अमड़ापाड़ा ने जीता खिताब



प्रत्यूष नवबिहार संवाददाता
पाकुड़/अमड़ापाड़ा: जिले के अमड़ापाड़ा प्रखंड स्तर पर दो दिवसीय 64वीं सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन बालक और बालिका वर्ग से अंडर 15 और अंडर 17 फुटबॉल मैच का आयोजन +2 हाई स्कूल अमड़ापाड़ा खेल मैदान में गुरुवार को खेला गया। मैच में प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया। बालक वर्ग अंडर 15 फुटबॉल

टूर्नामेंट कप मॉडल स्कूल, अमड़ापाड़ा ने जीता। वहीं बालिका वर्ग अंडर 17 में मॉडल स्कूल, अमड़ापाड़ा और बालक वर्ग अंडर 17 में +2 हाई स्कूल, अमड़ापाड़ा ने प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय पाडरकोला को 2-1 से हरा कर खिताब पर कब्जा किया। बालिका वर्ग के दोनों टीमों के बीच का मुकाबला काफी रोमांचक रहा। फुटबॉल प्रतियोगिता में मौसम ने खिलाड़ियों का भरपूर साथ दिया। सभी विजेता एवं उप विजेता टीम को कप और जर्सी देकर आलम बढ़ाया गया। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रमोद कुमार गुप्ता, बीपीओ सनातन मुर्मू, बीआरपी ब्रिनाल हांसदा, सीआरपी संदीप कुमार चौबे, शारीरिक शिक्षक संतोष कुमार टुडू, हिरोशील हांसदा सहित कई शिक्षक व बच्चे मौजूद थे।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बरहरवा स्टेशन पहुंचे कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत

प्रत्यूष नवबिहार संवाददाता
बरहरवा: बरहरवा में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बालमुकुंद सहाय एवं संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह गुरुवार को बरहरवा स्टेशन बननांचल एक्सप्रेस ट्रेन से उतरे जहां कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। तत्पश्चात माता विध्वंसासिनी मंदिर में पूजा अर्चना कर वृक्षारोपण भी किया। इसके बाद पार्टी के पदाधिकारी ने बरहेट के लिए प्रस्थान किया जहां पर अमर शहीद सिद्ध कानू के जन्म स्थली भोगनाडीह में 30 जून को हूल दिवस की तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बालमुकुंद सहाय प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह सहित पूर्व सांसद सुनील सोरेन,



पूर्व मंत्री लोबान हेन्रम, पूर्व विधायक अनंत ओझा, सहित अन्य लोग ने हूल दिवस को इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी बृहद रूप से मनाए जाने को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया। इस संबंध में प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने बताया कि पार्टी इस वर्ष हूल दिवस के अवसर पर शहिद सिद्ध कानू की

जन्मस्थली भोगनाडीह में विशेष कार्यक्रम करेगी। जिसे लेकर बृहद रूप से तैयारी चल रही है। बैठक में प्रदेश कार्य समिति सदस्य धर्मेन्द्र कुमार सिद्ध कानू के वंशज, मंडल मुर्मू जिला अध्यक्ष उज्ज्वल मंडल, कुसुमाकर तिवारी, अमित भारती, अरविंद पांडे, विक्की गुप्ता, सहित अन्य लोग शामिल थे।

लोकोस मोबाईल एप्लीकेशन का प्रशिक्षण आरंभ

प्रत्यूष नवबिहार संवाददाता
बरहरवा: झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, बरहरवा के सौजन्य से पकलोकोस मोबाइल एप्लीकेशन तथा ट्रांसेक्शन इंटी का तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन जेएसएलपीएस के सभाकक्ष में प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक फैज आलम के उपस्थिति में किया गया। फैज आलम के द्वारा बताया गया कि बिंदुपारा, रामनगर और रिसौर क्लस्टर में कार्यरत सभी ई.बीके का तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आरंभ किया गया है तथा फैज आलम के द्वारा बताया गया कि लोकोस मोबाईल एप्लीकेशन समुदाय आधारित कार्यक्रम है जो सखी मंडल और उनके संघों का एकीकृत समाधान है जिसमें सदस्यों को पंजीकृत करते हैं, नया सखी मंडलों का निर्माण कर उनकी जानकारी को एकीकृत कर सत्यापन किया जाता है, सखी मंडल के संचालन को प्रबंधित करते हैं जिसके तहत उपस्थिति, बचत, ऋण वितरण, पुर्नभुगतान,



बढ़ीखाता एवं अन्य वित्तीय गतिविधियां एकीकृत की जाती है तथा सखी मंडल की सारी जानकारी अन्य सरकारी व गैर सरकारी संस्था एवं सरकारी योजनाओं को लाभुक तक पहुंचाया जाता है। फैज आलम के द्वारा लोकोस मोबाइल एप्लीकेशन का विस्तारपूर्वक परिचय दिया गया तथा बताया गया कि सखी मंडल के सारे सदस्यों को पंजीकरण की प्रक्रिया, सदस्यों का आजीविका, बैंक खाता, आधार, मोबाइल नंबर, फोटो इत्यादि का पंजीकरण करना है एवं नया सखी मंडल का गठन कर उसका

तालझारी प्रखंड में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष शिविर का हुआ आयोजन



प्रत्यूष नवबिहार संवाददाता
साहिबगंज/तालझारी: प्रखंड अंतर्गत दो अलग-अलग जगहों पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत गुरुवार को तालझारी प्रखंड अंतर्गत बाकुडी पंचायत के बथानी पहाड़ व शालगाछी संस्थाली में जनजातीय ग्रामीणों को विकास योजना से जोड़ने के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के माध्यम से ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी गयी। वहीं पंचायत के सचिव पंकज कुमार मंडल ने बताया कि वर्षा होने के कारण शिविर में लोगों की

भीड़ कम पहुंची इसके अलावा भी आये ग्रामीणों को सरकार द्वारा जनजातीय ग्रामीण विकास के लिए शिविर लगाकर योजनाओं की जानकारी दी गई एवं ग्रामीणों को योजना से जोड़ने की सफल प्रयास किया जा रहा है। इस शिविर के माध्यम से चिह्नित गांवों में विभिन्न विभाग के लोगों के द्वारा पहुंचकर योजना से संबंधित लाभ दिया जा रहा है। ग्रामीणों को मनरेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेंशन सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गयी। मौके पर पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, सहित अन्य लोग मौजूद थे।

दीदी बाड़ी योजना का उपायुक्त ने किया निरीक्षण

प्रत्यूष नवबिहार संवाददाता
पाकुड़/पाकुड़िया: जिले के उपायुक्त मनीष कुमार ने बुधवार को पाकुड़िया प्रखंड का दौरा किया। इस दौरान उपायुक्त ने पाकुड़िया प्रखंड अंतर्गत पलियादाहा पंचायत के गुनुगुनिया गांव में मनरेगा द्वारा संचालित मरीयम हेन्ब्रम का दीदी बाड़ी योजना का निरीक्षण किया। साथ ही सतरी टुडू तथा बबिता टुडू के खेत में पौधारोपण कर दीदी बाड़ी योजना का शुभारंभ किया। साथ ही उपायुक्त ने रोजगार सेवक को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक दीदियों को दीदी बाड़ी योजना का लाभ दे। इसके पश्चात उपायुक्त ने डोमनाडिया पंचायत में पशु सखी नाजमुन निसा द्वारा संचालित चिक हार्डनिंग सेंटर का जायजा लिया तथा उचित मार्गदर्शन सखी दीदी को दिए। उपायुक्त ने सभी लाभुकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर हौसला अफजाई की। उपायुक्त ने पलियादाहा एवं फुलझिंझरी



पंचायत भवन का किया निरीक्षण, साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने का निर्देश पंचायत सचिव एवं मुखिया को दिया। **उपायुक्त ने फुलझिंझरी में धरती आबा जन भागीदारी अभियान के तहत लगाए गए शिविर का लिया जायजा**

उपायुक्त ने फुलझिंझरी कलस्टर में धरती आबा जन भागीदारी अभियान के तहत लगाए गए शिविर का जायजा लिया। शिविर में प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली और स्पष्ट निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों का त्वरित एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए तथा

पाकुड़िया प्रखंड स्थित फुलझिंझरी पंचायत भवन में प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक पंचायत में निर्धारित तिथि को शिविरों का आयोजन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को शिविरों में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने, समन्वय के साथ कार्य करने और योजनाओं का अधिकतम लाभ प्राप्त व्यक्तियों तक पहुंचाने की बात कही। साथ ही 20 तारीख को आयोजित होने वाले तिथि भोज सह जन्मोत्सव को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। मौके पर बीडीओ सोमनाथ बनर्जी, जेएसएलपीएस डीपीएम प्रवीण कुमारी, बीपीएम राजीव कुमर, थाना प्रभारी मनोज कुमार महतो सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

संक्षिप्त खबरें

पुलिस ने एक वारंटी को गिरफ्तार कर मेजा जेल



साहिबगंज: जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र की पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे छोटी कोदरजना निवासी वारंटी मो. झानी उर्फ जानी मियां को गुरुवार को गिरफ्तार करने के बाद उसका मेडिकल जांच करवाने के लिए सदर अस्पताल लेकर आई। जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉ. कुमार अंकित ने आरोपी का मेडिकल जांच किया जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस मौके पर एसआई बंटी कुमार यादव समेत अन्य पुलिस जवान मौजूद थे।

सदर अस्पताल साहिबगंज में लगा विकलांग शिविर



साहिबगंज: सदर अस्पताल साहिबगंज में हर महीने के दूसरे बुधवार को विकलांग शिविर लगाया जाता है। जहां एड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन कुमार से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि आज 19 जून 2025 दिन बुधवार को सदर अस्पताल साहिबगंज में विकलांग शिविर लगाया गया है। जहां 120 से अधिक विकलांग मरीजों को देखा गया। जहां विकलांग मरीजों के लिए एड्डी रोगी विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन कुमार, मानसिक रोगी विशेषज्ञ डॉक्टर अनिमेष कुमार, आंख रोगी विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल कुमार देखने के लिए बैठे हुए थे। वहीं डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि विकलांग सॉर्टिकेट बनाने से बहुत सारे फायदे होते हैं किसी को पढ़ाई में, किसी को ब्लॉक द्वारा पेंशन में, किसी को नौकरी में और ट्रेन में सफर करने में और अन्य जगहों में सॉर्टिकेट बनाने से फायदा मिलता। वहीं डॉक्टर सचिन कुमार ने बताया कि मरीज को देखकर उसको परसेंटज देते हैं, अगर 40% से अधिक विकलांग है तो उसे पेंशन मिलने में फायदा होता है। जहां पहले हर ब्लॉक में जा जा कर विकलांग शिविर में सॉर्टिकेट बना रहे थे। अब महीने के हर दूसरे बुधवार को साहिबगंज सदर अस्पताल में ही विकलांग सॉर्टिकेट बनेगा।

मॉडल कॉलेज राजमहल में डिप्लोमा छठे सेमेस्टर की परीक्षा हुई संपन्न



साहिबगंज/राजमहल: मॉडल कॉलेज राजमहल, साहिबगंज में दिनांक 19 जून 2025 को झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (जेयूटी) के अंतर्गत संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रम की छठे सेमेस्टर की परीक्षा के सफलतापूर्वक समापन हुआ। परीक्षा के अंतिम दिन विभिन्न तकनीकी शाखाओं — सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग (ईईई) — से कुल 270 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि परीक्षा में कोई भी परीक्षार्थी अनुपस्थित नहीं रहा, जो विद्यार्थियों की प्रतिबद्धता और परीक्षा के प्रति उनकी गंभीरता को दर्शाता है। परीक्षा का आयोजन पूर्णतः शांतिपूर्ण, पारदर्शी एवं कदाचारमुक्त वातावरण में हुआ। केंद्र पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारु रूप से क्रियान्वित की गई थीं, जिससे परीक्षार्थियों को एक सहज एवं अनुशासित वातावरण प्राप्त हुआ। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य सह केंद्राधीक्षक डॉ. रणजीत कुमार सिंह ने सभी परीक्षार्थियों को उनके अनुशासित व्यवहार एवं समयबद्धता के लिए सराहा। उन्होंने परीक्षा संचालन में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सहयोग देने वाले शिक्षकों, गैर-शिक्षकीय कर्मचारियों तथा सुरक्षा कर्मियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। डॉ. रंजीत सिंह ने परीक्षा में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद प्रदान करते हुए आशा व्यक्त की कि वे आने वाले समय में तकनीकी क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। मॉडल कॉलेज का यह परीक्षा आयोजन न केवल प्रशासनिक दक्षता का परिचायक रहा, बल्कि विद्यार्थियों के भीतर निहित अनुशासन एवं आत्मविश्वास को भी उजागर करता है।

कांग्रेस महिला मोर्चा ने राहुल गांधी का मनाया जन्मदिन



पाकुड़: जिले में गुरुवार को कांग्रेस महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष शहनाज बेगम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके सदस्य व वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का जन्मदिन में केक काटकर धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर शहनाज बेगम ने वृक्षारोपण का आयोजन किया गया साथ ही पाकुड़ वृद्ध आश्रम में जरूरतमंद को फल बांटा गया। वहीं बाद में बस्ती में जाकर गरीब बच्चों को पेंसिल, किताब, फल और मिठाई भी बांटा गया। मौके पर जिला उपाध्यक्ष रेखा रानी महतो, जिला सोशल मीडिया चेरमैन पियारुल इस्लाम, सदर प्रखंड महिला मोर्चा अध्यक्ष खालिदा खातून, साथी मुईमली, सिरिना बेबी एवं अन्य महिला कार्यकर्ता आदि उपस्थित थे।

अब देश में सभी मोबाइल नंबरों के लिए केवॉयसी अनिवार्य, सरकार ने लिया फैसला

नई दिल्ली।

सरकार ने मोबाइल सेवाओं में पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर बड़े फैसला किया है। अब देश में सभी मोबाइल नंबरों के लिए केवॉयसी यानी नो योर कस्टमर प्रक्रिया को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है। सरकार के इस फैसला विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा जो अब तक बिना पूरी पहचान के प्रीपेड सिम कार्ड ले लेते थे। पहले तक प्रीपेड ग्राहकों को कुछ हद तक केवॉयसी में छूट दी गई थी, लेकिन अब यह छूट पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। अब चाहे मोबाइल नंबर प्रीपेड हो या पोस्टपेड, ग्राहक को पहचान और पते का प्रमाण भी देना ही होगा। यह प्रक्रिया ऑनलाइन

माध्यम से जैसे टेलीकॉम कंपनियों की वेबसाइट या ऐप के जरिए या फिर ऑफलाइन टेलीकॉम स्टोर्स पर जाकर पूरी की जा सकती है। सरकार का कहना है कि यह कदम देश में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए उठाना जरूरी था। मोबाइल नंबरों का दुरुपयोग टेरर फंडिंग, मनी लाँड्रिंग और साइबर फॉंड जैसी गतिविधियों में किया जाता है।

बिना केवॉयसी वाले नंबर इन अपराधों में सहायक हो सकते हैं, इसलिए इस फैसले से इन पर काफी हद तक नियंत्रण लगेगा। इसके अलावा हर मोबाइल नंबर एक वैध और प्रमाणित व्यक्ति से जुड़ा होगा, जिससे सरकार को आपातकालीन सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी में भी मदद मिलेगी।

इस नए नियम का असर प्रीपेड मोबाइल यूजर्स पर पड़ेगा। उन्हें अब सिम खरीदते समय पूरी केवॉयसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। यह प्रक्रिया थोड़ी समय लेने वाली और असुविधाजनक लग सकती है, लेकिन सरकार का मानना है कि इससे लंबे समय में आम नागरिकों को ही फायदा होगा।

वहीं पोस्टपेड यूजर्स पर इसका पभाव सीमित रहेगा क्योंकि वे पहले से ही केवॉयसी प्रक्रिया से गुजरेंगे। हालांकि उन्हें भी समय-समय पर अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी। कूल मिलकर सरकार का यह कदम मोबाइल यूजर्स की सुरक्षा बढ़ाने, डिजिटल ट्रैकिंग को मजबूत करने और अवैध कार्यों को रोकने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

अहमदाबाद हादसे के बाद एयर इंडिया ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में की कटौती

-कंपनी ने कहा- आगे भी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी

नई दिल्ली।

अहमदाबाद विमान हादसे के बाद एयर इंडिया ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में 15 फीसदी कटौती का फैसला किया है। ये फैसला अभी से लागू होगा और कम से कम 15 जुलाई तक जारी रहेगा। कंपनी ने कहा कि ये कदम यात्रियों की सुरक्षा और उड़ानों की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए लिया गया। पिछले छह दिनों में एयर इंडिया की 83 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। एयर इंडिया के पास 33 बॉइंग 787-8 और 787-9 विमान हैं। इनमें से 26 विमानों की सुरक्षा जांच पूरी हो चुकी है और उन्हें सेवा के लिए मंजूरी मिल गई है। बाकी विमानों की जांच अगले कुछ दिनों में पूरी कर ली जाएगी। एयर इंडिया ने कहा है कि वह अपने बॉइंग 777 विमानों की भी अतिरिक्त सुरक्षा जांच करेगी ताकि कोई जोखिम न रहे। कंपनी ने बताया कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, यूरोप और पूर्वी एशिया के कई देशों में रात के समय उड़ानों पर पाबंदी और सुरक्षा जांचों के कारण अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में बाधाएं आई हैं। इसके चलते इंजीनियरिंग स्टाफ और पायलट भी सावधानी बरत रहे हैं। 12 जून को हुआ अहमदाबाद विमान हादसा भारत के इतिहास की सबसे बड़ी हवाई दुर्घटनाओं में से एक बन गया है। पलाइट एआई171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी लेकिन टेकऑफ के कुछ ही मिनटों बाद क्रेश हो गई। हादसे में 241 यात्रियों और क्रू की मौत हो गई, साथ ही जमीन पर मौजूद डॉक्टर मेस में 30 से ज्यादा लोग भी इसकी चपेट में आ गए। एयर इंडिया ने कहा कि हम अब भी एआई171 पलाइट में मारे गए 241 यात्रियों और क्रू मेंबर के दुख में डूबे हुए हैं। हमारी संवेदनाएं उन सभी परिवारों और समुदायों के साथ हैं जो इस दर्दनाक हादसे से प्रभावित हुए हैं। कंपनी ने भरोसा दिलाया कि आगे भी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

टीवीएस आईव्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर ने की रिकॉर्ड बिक्री, ओला-बजाज को पीछे छोड़ा



नई दिल्ली।

टीवीएस आईव्यूब भारतीय बाजार में बिक्री के नए इतिहास रच रहा है। इसने घरेलू बाजार में 6 लाख थोक बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। ओला और बजाज को पीछे छोड़ा। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2025 के आखिर में केवल 1,345 यूनिट की बिक्री थी, जो मई 2025 के पहले दो दिनों में हासिल की गई, जिसमें 27,642 यूनिट की बिक्री हुई और कुल मिलाकर 6,26,297 यूनिट हो गई। ये कंपनी का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है। ये मई में देश का नंबर-1 ई-स्कूटर भी है।

आइव्यूब की पहली 1,00,000 यूनिट की बिक्री में तीन साल से थोड़ा ज्यादा समय लगा। 1,00,000 से 2,00,000 यूनिट तक का समय सिर्फ 10 महीने में पूरा कर लिया, जबकि, 3,00,000 यूनिट थोक बिक्री मई 2024 की शुरुआत में पूरा कर ली, जो 53 महीने या चार साल और चार महीने है। पिछले 12 महीनों में पूरे भारत में टीवीएस डीलरों को भेजा गया है, जो ई-स्कूटर की बढ़ती मांग को दर्शाता है। बता दें आईव्यूब को जनवरी 2020 में लॉन्च किया गया था, जो फुल एलर्जी डी लाइट्स, कनेक्टड टेक्नोलॉजी से लैस है और इसे एक बड़ी सीट और बढ़िया स्टोरेज स्पेस के साथ एक फैमिली ई-स्कूटर के रूप में पेश किया गया है। इलेक्ट्रिक स्कूटर को 6,00,000 बिक्री करने में 65 महीने लगे हैं। जैसा कि डेटा दिखता है कि पिछले तीन फाइनेंशियल ईयर में मांग बढ़ी है, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में तेजी से बढ़ेगी।

अमेरिकी फेड ने बैंचमार्क ब्याज दर में नहीं किया कोई बदलाव

-बढ़ती महंगाई की वजह ट्रंप के लगाए गए टैरिफ को बताया

नई दिल्ली। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की फेडरल ओपन मार्केट कमिटी ने अपनी बैंचमार्क ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है। अब यह दर 4.25 फीसदी से 4.5 फीसदी के बीच ही बनी रहेगी। यह चौथी बार जब फेड ने दरों को स्थिर रखा है। कमिटी के सदस्यों ने इस फैसले का समर्थन किया। बैठक के बाद फेड ने कहा कि महंगाई अभी भी कुछ हद तक ज्यादा है। साथ ही यह भी बताया गया कि हाल के आंकड़े बताते हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मजबूती के साथ विकास जारी है। फेड ने कहा कि बेरोजगारी दर अब भी कम है और

श्रम बाजार की स्थिति मजबूत बनी हुई है, जिससे यह पता चलता है कि अर्थव्यवस्था को लेकर फेड का भरोसा कायम है। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने कहा है कि अमेरिका में गर्मी के मौसम में वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। उन्होंने इसकी वजह राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को बताया। चेयरमैन ने कहा कि हम देख रहे हैं कि वस्तुओं की महंगाई थोड़ी बढ़ रही है। हमें उम्मीद है कि गर्मियों में यह और बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि टैरिफ का असर पूरी सप्लाय चैन पर पड़ता है, क्योंकि बहुत सी वस्तुएं महीनों पहले आयात की गई थीं। उन्होंने यह भी बताया कि अब कुछ

श्रेणियों जैसे परसलन कंप्यूटर और ऑडियो-विजुअल उपकरणों में कीमतें बढ़ रही हैं, और यह टैरिफ बढ़ने की वजह से है। उनका कहना है कि आने वाले महीनों में इस तरह की कीमतों में और इजाफा हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्याज दरों में कटौती को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दिन की शुरुआत में मांग की कि फेडरल रिजर्व को 1 से 2.5 फीसदी अंक तक की बड़ी कटौती करनी चाहिए। बता दें फेड की दरों से जुड़ा फैसला सात राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त गवर्नर्स और पांच क्षेत्रीय बैंकों के अध्यक्षों के एक रोशन समूह के बीच गहन विचार-विमर्श के बाद लिया जाता है।

शेयर बाजार निवेशकों को सतर्कता बरतने की जरूरत

नई दिल्ली।

बढ़ती वैल्यूएशन, कंपनियों के कमजोर मुनाफे और घरेलू मांग की सुस्ती के चलते शेयर बाजार के निवेशकों के लिए यह समय सतर्कता बरतने का है। भारत के शेयर बाजार में कॉविड-19 के बाद शुरू हुई तेजी का दौर अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि हर बुल या बेयर मार्केट लगभग पांच वर्षों में चरम पर पहुंचता है, और मार्च 2025 में यह बुल रन पांच साल पूरा कर लेगा। ऐसे में अब बाजार को ऊंचाईयों तक पहुंचाने वाले प्रमुख कारक लगभग समाप्त हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, कॉविड के बाद कंपनियों के मुनाफे की गति उनकी आमदनी से कहीं अधिक तेज थी, लेकिन वित्त वर्ष 2025 तक आते-आते यह

दोनों लगभग समान स्तर पर पहुंच गए हैं। मार्च 2025 की तिमाही में कंपनियों की मुनाफे की ग्रोथ 10 प्रतिशत से नीचे रही और पिछले आठ तिमाहियों से यही धीमा रुझान बना हुआ है। अर्थव्यवस्था में नकदी तो है, लेकिन वह +मनी मल्टीप्लायर- नहीं बन पा रही है। यानी मजबूत निर्यात, सरकारी खर्च में विस्तार और वेतन वृद्धि जैसे तत्वों की अनुपस्थिति के कारण पैसा बाजार में तेजी से घूम नहीं रहा है। मांग की ग्रोथ भी कई बाधाओं से जूझ रही है। भारत का निर्यात वैश्विक व्यापार युद्ध, भूराजनीतिक तनाव और चीन की खूपिंग नीतियों की वजह से दबाव में है। कंपनियां अपने पूंजीगत खर्च और वेतन वृद्धि में कटौती कर रही हैं, जिससे फ्री कैश फ्लो तो बढ़ा है, लेकिन मांग पर प्रतिकूल असर पड़ा है। सरकार भी उधारी लेने से बच रही है

और आमदनी में कोई बड़ा सुधार नहीं दिख रहा है। इन सभी कारणों से डेमैस्टिक डिमांड के लिए कोई ठोस इंजन नहीं आ रहा। भारत का बाजार अब भी ऊंची वैल्यूएशन पर है। निफ्टी500 का प्रॉइस-टू-बुक रेशियो 3.9x है और मार्केट कैप बनाम जीडीपी रेशियो 132 प्रतिशत के आसपास है, जो कि इसके दीर्घकालिक औसत से काफी अधिक है। ऐसे में आने वाले वर्षों में रिटर्न सीमित रह सकता है।

रुपया गिरावट पर बंद

मुंबई।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गुरुवार को भारतीय रुपया 25 पैसे की गिरावट के साथ ही 86.74 पर बंद हुआ। वहीं गत दिवस रुपया 45 पैसे की गिरावट के साथ ही 86.49 पर बंद हुआ था। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और मजबूत डॉलर के दबाव को दक्षिण करके हुए रुपया गत दिवस शुरूआती कारोबार में 11 पैसे की बढ़त के साथ 85.93 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, डॉलर के मुकाबले 85.96 पर खुला। फिर 85.93 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से 11 पैसे की बढ़त दिखाता है।

शेयर बाजार गिरावट पर बंद

मुंबई।

भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को भी गिरावट पर बंद हुआ। इस प्रकार लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में बाजार में गिरावट रही। आज सुबह दुनिया भर के बाजारों से मिले-जुले संकेतों के बीच ही इरान और इजरायल के बीच संघर्ष बढ़ने से भी निवेशक बाजार से दूर रहे। इस कारण बाजार नीचे आया है। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 82.79 अंकों की गिरावट के साथ ही 81,361.87 अंकों पर बंद हुआ। वहीं इसी प्रकार 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी भी 18.80 अंकों की गिरावट के साथ ही 24,793.25 अंकों पर बंद हुआ। वहीं गत दिवस भी बाजार गिरावट पर बंद हुआ था। आज सेंसेक्स की 30 में से केवल 8 कंपनियों के शेयर ही बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि बाकी की सभी 22 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। इसी तरह, निफ्टी 50 की 50 में से सिर्फ 17 कंपनियों के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए और बाकी की सभी 33 कंपनियों के शेयर नुकसान के साथ बंद हुए। आज सेंसेक्स की कंपनियों में शामिल महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर सबसे ज्यादा 1.57 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुए जबकि अडाणी पोर्ट्स के शेयर आज सबसे ज्यादा 2.50 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुए।

सेंसेक्स की अन्य कंपनियों में आज टाइटन के शेयरों में 0.74 फीसदी, मारुति सुजुकी 0.45 फीसदी, भारतीय एयरटेल 0.43 फीसदी, लार्सन एंड टुब्रो 0.32 फीसदी, कोटक महिंद्रा बैंक 0.31 फीसदी, एचडीएफसी बैंक 0.13 फीसदी की बढ़त रही। वहीं बजाज फाइनेंस के शेयर 2.19 फीसदी, टेक महिंद्रा 1.95 फीसदी, इंडसइंड बैंक 1.73 फीसदी, नेस्ले इंडिया 1.28 फीसदी, भारतीय स्टेट बैंक 1.13 फीसदी, एनटीपीसी 1.07 फीसदी, बजाज फिनसर्व 1.05 फीसदी, टाटा स्टील 0.99 फीसदी, इंफोसिस 0.95 फीसदी, टीसीएस 0.89 फीसदी, एशियन पेंट्स 0.58 फीसदी, पावरग्रिड 0.50 फीसदी, एक्सिस बैंक 0.41 फीसदी रही। इससे पहले आज सुबह बाजार गिरावट के साथ खुला। सेंसेक्स आज सुबह 98 अंकों टूटकर 81,347 पर पहुंच गया। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी भी 24 अंकों की गिरावट के साथ ही 24,788 पर कारोबार कामकाज करता दिखा। बाजार में इस गिरावट का कारण अमेरिका के फेडरल रिजर्व का ब्याज दरों को यथावत बनाए रखना, इजरायल और इरान के बीच बढ़ता तनाव, निफ्टी एफएंडओ की एक्सपायरी आदि रही। सुबह करीब 7:30 बजे गिफ्ट निफ्टी वायदा 60 अंकों की गिरावट के साथ

डील साइन करने के बाद रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों भारी खरीदारी

नई दिल्ली। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में जबरदस्त खरीदारी हो रही है। अनिल अंबानी की कंपनी के शेयर में 5 प्रतिशत का अपर सर्किल लग गया और यह 386.05 रुपये के ड्रॉ डे हई पर पहुंच गया। कंपनी के शेयरों में इस तेजी के पीछे एक बड़ी डिफेंस संबंधित डील है। दरअसल, फ्रांस की दिग्गज डिफेंस कंपनी डसॉल्ट एविएशन और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी रिलायंस एयरोस्ट्रक्चर के बीच भारत में फाल्कन 2000 बिजनेस जेट बनाने के लिए एक डील साइन की गई है। बता दें कि डसॉल्ट एविएशन ने ही राफेल फाइटर जेट को भी बनाती है। राफेल का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था। 18 जून को कारोबार के दौरान एक एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली फर्म ने घोषणा की कि इसकी सहायक कंपनी रिलायंस एयरोस्ट्रक्चर लिमिटेड ने ग्लोबल मार्केट्स के लिए भारत में फाल्कन 2000 बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट बनाने के लिए डसॉल्ट एविएशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है। 18 जून को अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा, डसॉल्ट एविएशन और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी, रिलायंस एयरोस्ट्रक्चर लिमिटेड (आरएएल) ने आज पेरिस एयर शो में वैश्विक बाजारों के लिए भारत में फाल्कन 2000 बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट बनाने के लिए एक ऐतिहासिक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। यह साझेदारी भारत की एयरोस्पेस विनिर्माण क्षमताओं को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। बता दें कि डसॉल्ट एविएशन पहली बार भारतीय और वैश्विक बाजारों के लिए फ्रांस के बाहर फाल्कन 2000 बिजनेस जेट का निर्माण करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और ब्राज़ील के बाद भारत अगली पीढ़ी के बिजनेस जेट बनाने वाले देशों के कुलीन वर्ग में शामिल हो गया।

विमान हादसे के पीड़ितों के दावों का निपटान करना बीमा कंपनियों के लिए चुनौती

अहमदाबाद। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे के पीड़ितों के दावों का निपटान करना बीमा कंपनियों के लिए चुनौती है। वजह ये है कि कई मामलों में पॉलिसीधारक और उसके नामित व्यक्ति (नॉमिनी), दोनों ही इस त्रासदी में मारे गए हैं। अहमदाबाद में 12 जून को हुई भयावह दुर्घटना में पूरे परिवार के खत्म हो जाने या पति-पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाने के मामले सामने आए हैं। इस विमान में सवार 241 लोगों और जमीन पर मौजूद 29 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि हादसे के तुरंत बाद, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इडए) ने बीमा कंपनियों से कहा कि वे विदेशी चिकित्सा बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना और जीवन बीमा

पॉलिसियों के जारी करने संबंधी अपने आंकड़ों से मृतक के विवरण का सत्यापन करें। परामर्श में यह भी कहा गया कि यात्रियों की सूची में शामिल पुष्टिकृत मृत व्यक्तियों तथा दुर्घटना से प्रभावित इमारतों में रहने वाले व्यक्तियों के मामलों में प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के कारण किसी भी दावे को अस्वीकार या विलंबित नहीं किया जाएगा। एलआईसी के एक अधिकारी ने बताया कि कंपनी को अब तक 10 दावे प्राप्त हुए हैं। एक मामला ऐसा भी है, जिसमें बीमित व्यक्ति ने अपने जीवनसाथी को नामित किया था और दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई। इफको टॉकियो इश्योरेंस के प्रबंधक ने भी एक ऐसे मामले का जिक्र किया जिसमें एक कंपनी के निदेशक और उनकी नामित पत्नी दोनों की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। टाटा एआईजी

के अधिकारी ने कहा कि उन्हें अब तक सात क्लेम प्राप्त हुए हैं, जिनमें से एक ऐसा मामला है जिसमें मृतक ने अपने जीवनसाथी को नामित किया था और उसकी भी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। बीमा कंपनी के अधिकारी ने कहा, अगर बीमाधारक और नामांकित व्यक्ति, दोनों की मृत्यु हो गई है, तो हम श्रेणी-1 के वारिसों की तलाश करते हैं, जो आमतौर पर बच्चों जैसे रक्त संबंधी होते हैं। यदि कई बच्चे हैं, तो हम वारिसों के एक घोषणापत्र लेते हैं कि दावे का निपटान कैसे किया जाना है और कंपनी को क्षतिपूर्ति बाँड जमा करना होता है। उनकी कंपनी की कानूनी टीम सब बात पर विचार कर रही है कि क्या उन मामलों में उत्तराधिकारियों की संयुक्त घोषणा मांगी जा सकती है, जहाँ बीमाधारक और नामित व्यक्ति, दोनों की मृत्यु हो गई हो।

सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट

नई दिल्ली। घरेलू बाजार में गुरुवार को सुबह सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। इन दोनों के वायदा भाव आज नीचे आये हैं। युबह घरेलू बाजार में सोने की कीमत 99,300 रुपये, जबकि चांदी 1,08,400 रुपये थी। वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में कमी आई है। मल्टी कमांडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का बैंचमार्क अगस्त अनुबंध 335 रुपये टूटकर 99,202 रुपये के भाव पर खुला। इसका पिछला बंद भाव 99,537 रुपये था। एक समय यह अनुबंध 247 रुपये नीचे आकर 99,290 रुपये के भाव पर था। ये 99,304 रुपये के भाव पर दिन के उच्च और 99,152 रुपये के भाव पर दिन के निचला स्तर पर पहुंचा। सोने के वायदा भाव इस साल 1,01,078 रुपये के भाव पर सर्वोच्च स्तर पर पहुंचे थे। चांदी के वायदा भाव की शुरुआत भी कमजोर रही। एमसीएक्स पर चांदी का बैंचमार्क जून 2025 अनुबंध 405 रुपये नीचे आकर 1,08,161 रुपये पर खुला। वहीं इसका पिछला बंद भाव 1,08,566 रुपये था। एक समय यह अनुबंध 179 रुपये टूटकर 1,08,387 रुपये के भाव पर कामकाज कर रहा था। दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय बाजार में आज सोने चांदी के वायदा भाव में कमी आई है। कामेक्स पर सोना 3,387.10 डॉलर प्रति औंस पर खुला। इसका पिछला बंद भाव 3,408.10 डॉलर प्रति औंस था। वहीं एक समय यह 15.50 डॉलर की कमी के साथ ही 3,392.60 डॉलर प्रति औंस के भाव पर दिन के उच्च कर रहा था। सोने के वायदा भाव इस साल 3,509.90 डॉलर के शीर्ष स्तर पर पहुंचे हैं जबकि कामेक्स पर चांदी के वायदा भाव 36.75 डॉलर के भाव पर खुले। इसका बंद भाव 36.91 डॉलर था।

नई दिल्ली। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी मोटोरोला और सैमसंग के ऐसे कई स्मार्टफोन्स हैं जो 50 मेगापिक्सल के दमदार फॉट कैमरे के साथ आते हैं और साथ ही शानदार रियर कैमरा सेटअप, पावरफुल बैटरी और हाई-रिफ्रेश रेट डिस्प्ले भी ऑफर करते हैं। मोटोरोला का एक फोन 50एमपी फॉट और रियर में 50एमपी +50एमपी अल्ट्रावाइड-मैक्रो कैमरा के साथ आता है। इसमें डायमेंसिटी 8350 प्रोसेसर और 6000 एमएएच की बैटरी दी गई है, जो 90वां फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह फोन आईपी68+ आईपी69 रेटिंग से लैस है। एक अन्य मोटोरोला फ्लफ फोन 6.96 इंच के मेन और 4 इंच के कवर डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें स्नैपड्रैगन 8 इलाइट प्रोसेसर, 4700एमएएच बैटरी, 68 वाट फास्ट और 30वां वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है। एक और मोटोरोला डिवाइस 50एमपी सेल्फी कैमरा, 1.5के रेजॉल्यूशन, 144एचझेड रिफ्रेश रेट और 125वां फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। सैमसंग भी 50एमपी सेल्फी कैमरा वाले क्रिफायटी और प्रीमियम दोनों सेगमेंट्स में फोन ऑफर कर रहा है। एक मॉडल में 50 एमपी फॉट, 50एमपी+8एमपी+2एमपी रियर कैमरा, 6.7 इंच सुपर अमोलेड-डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 7 जेन 1 प्रोसेसर है। इसकी 5000एमएएच बैटरी 45वां फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। एक अन्य सैमसंग फोन में 50एमपी सेल्फी, 50एमपी मेन कैमरा, 5एमपी अल्ट्रावाइड और 2एमपी डेथ लेंस के साथ शानदार कैमरा अनुभव मिलता है। 6.7 इंच डिस्प्ले और 120 एचझेड रिफ्रेश रेट के साथ यह फोन भी 45वां फास्ट सपोर्ट करता है। मालूम हो कि वॉडियो स्ट्रिंग और सोशल मीडिया के दौर में लोग अब ऐसे स्मार्टफोन को प्राथमिकता दे रहे हैं जिनमें कैमरा क्राइटी जबरदस्त हो, खासकर सेल्फी कैमरा। ऐसे ग्राहकों के लिए ये स्मार्टफोन उपयोगी साबित हो सकते हैं।

श्रावणी मेला को लेकर जिलाधिकारी ने सुल्तानगंज का किया निरीक्षण

तैयारियों को लेकर दिए आवश्यक निर्देश

भागलपुर। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने गुरुवार को सुल्तानगंज पहुंचकर मेला क्षेत्र का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, अभियंताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर मेला क्षेत्र के प्रमुख स्थलों का जायजा लिया। इस क्रम में नमामि गंगे घाट, नई सीढ़ी घाट, कावंडिया पथ, पार्किंग स्थल और नियंत्रण कक्ष समेत अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की स्थिति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद



अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि 30 जून तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं ताकि मेला के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। जिलाधिकारी ने कहा कि श्रावण मास के दौरान प्रतिदिन दो

लाख से अधिक श्रद्धालु सुल्तानगंज पहुंचते हैं और उत्तरवाहिनी गंगा से गंगाजल भरकर झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम में जलापण के लिए पदयात्रा करते हैं।

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और उनकी आस्था को देखते हुए प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक इंतजाम युद्धस्तर पर किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि सुल्तानगंज के सभी घाटों पर

पर्याप्त रोशनी, स्वच्छ शौचालय और सुरक्षा के ठोस इंतजाम किए जाएंगे। गोताखोरों के साथ-साथ एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती भी सुनिश्चित की जा रही है ताकि किसी आपात स्थिति से निपटा जा सके। उन्होंने बताया कि कावंडिया पथ पर आठ अस्थायी थानों की स्थापना की जाएगी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था चूस्त-दुरुस्त बनी रहे। मेले के दौरान कुल 1500 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल होंगी। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम

करते हुए यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मेला सुव्यवस्थित, सुरक्षित और श्रद्धालु हितैषी रहे। निरीक्षण के दौरान भागलपुर के उपविकास आयुक्त प्रदीप कुमार, सिटी एसपी, स्थानीय विधायक, नगर परिषद प्रतिनिधि और प्रखंड स्तर के अधिकारी भी उपस्थित थे। सभी अधिकारियों को जिलाधिकारी ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि मेले की सफलता के लिए सभी को एकजुट होकर गंभीरता से कार्य करना होगा। गौरतलब है कि इस वर्ष श्रावणी मेला 11 जुलाई से आरंभ होकर एक माह तक चलेगा।

संक्षिप्त डायरी

लालू ने बेटे तेजस्वी यादव के फामूलें पर लगाई मुहर, जानें राजद कैसे बाटेगा बिहार विधानसभा के टिकट



पटना। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राज्य परिषद की बैठक हुई, जिसमें राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मंगनीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष का प्रमाण पत्र सौंपा। इस मौके पर राबड़ी देवी ने मंगनीलाल मंडल को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि 'मैं मंगनीलाल मंडल को बहुत-बहुत बधाई देती हूँ। राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव को भी बधाई दी। राबड़ी देवी ने कहा कि तेजस्वी यादव पार्टी को लेकर आगे चल रहे हैं। हमें पार्टी को मजबूत बनाना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है। जो जहां क्षेत्र में है उन्हें वहां आगे बढ़ाना है। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कैसे-कैसे लोग सरकार में हैं। यह महा जंगल राज नहीं राक्षसराज है। रोड पर कोई चल नहीं पा रहा, घर में घुस-घुसकर मारा जा रहा है। राबड़ी देवी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सारा काम सरकार का लोग कर रहे हैं। इसके साथ ही मीडिया पर भी उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा कि मीडिया को सरकार का कुछ नहीं दिखाता है। हम लोग के राज में कुछ होता है तो एक महीना दिखाता है सब। सरकार में क्या हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। लालू और तेजस्वी यादव सत्ता खाते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव की प्रशंसा करते हुए कहा कि तेजस्वी जो तय किए हैं, वही करना है। हम लोग उनके साथ हैं। पूरा बिहार परिवार हमारा है। जिसको जितना गाली देना है गाली देते जाएं। सब को एक जुट रहना है। बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के नवगठित राज्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. तनवीर हसन ने की। यह कार्यक्रम पटना के ज्ञान भवन (गांधी मैदान) में हुई। बैठक में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और मंगनीलाल मंडल के अलावे राज्य के सभी नेता, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक एवं पूर्व विधायक सहित लगभग 800 राज्य परिषद के सदस्य शामिल हुए। मंगनी लाल मंडल को सत्र 2025 - 2028 के लिए बिहार प्रदेश राजद के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। यह आगामी बिहार विधान सभा चुनाव को लेकर किया गया है।

फल्गु नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा, दो दर्जन लोग फंसे

गयाजी। फल्गु नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने के कारण गुरुवार तड़के गया शहर में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। देर रात से जारी रुक-रुक कर बारिश के चलते नदी में पानी का तेज बहाव शुरू हो गया, जिससे सिक्स लेन पुल के नीचे से दो दर्जन लोग फंसे हुए। अचानक बढ़े जलस्तर के कारण वे चारों ओर से पानी से घिर गए और मदद के लिए चिल्लाने लगे। शोर सुनकर आसपास के मोहल्लों के लोग मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए। स्थानीय लोगों ने फंसे लोगों को पुल के ऊपर से रस्सी फेंक कर बाहर निकाला। इसी बीच एसडीआरएफ (राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल) की टीम को सूचना दी गई, जो कुछ ही देर में मौके पर पहुंच गई और बचाव कार्य शुरू किया।



प्रत्यक्षदर्शी और स्थानीय युवक संतोष कुमार ने बताया कि सभी फंसे लोग खानाबदोश प्रवृत्ति के हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते रहते हैं। उन्होंने बताया कि रात में सूचना मिलते ही स्थानीय युवाओं ने पहल करते हुए सबसे पहले बचाव कार्य शुरू किया। हालांकि इस घटना में किसी व्यक्ति की जान नहीं गई, लेकिन कई मंवेची पानी के तेज बहाव में बह गए। फ्लिहाल सभी फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और स्थिति सामान्य है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील की है और जरूरत पड़ने पर स्थानांतरित करने की तैयारी भी की जा रही है।

बच्चों के झगड़े में बड़ों ने की मारीपीट

बांका। बच्चों के बीच हुए विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। कटौरिया थाना क्षेत्र के तिलैया गांव में बृहस्पतिवार को यह घटना हुई। बच्चों के झगड़े को लेकर पंचायत बुलाने के विवाद में दो पक्षों के बीच मारीपीट हो गई। इस घटना में तीन लोग घायल हुए। एक पक्ष से भोला दास का बेटा डब्लू दास घायल हुआ। दूसरे पक्ष से किशन दास और उनकी पत्नी प्रमिला देवी को चोटें आईं। सभी घायलों को कटौरिया रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला डब्लू दास और संजय दास के बच्चों के बीच हुए झगड़े से शुरू हुआ। इस विवाद को सुलझाने के लिए सामाजिक पंचायत बुलाने को लेकर दोनों पक्षों में तनाव बढ़ गया। यह तनाव मारीपीट में बदल गया। गुरुवार दोपहर को दोनों पक्षों ने कटौरिया थाने में एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बिहार में पहली बार ई-वोटिंग से होगा चुनाव

पटना। बिहार में पहली बार ई-वोटिंग की सुविधा नौबतपुर नगर पंचायत चुनाव में शुरू की जा रही है। 28 जून को होने वाले इस चुनाव में मतदाता घर बैठे मोबाइल से वोट कर सकेंगे। दानापुर की अनुमंडल पदाधिकारी दिव्य शक्ति ने गुरुवार को साइकिल रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि ई-वोटिंग की सुविधा उन मतदाताओं के लिए है, जो मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच सकते। इसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के छात्र-छात्राएं भी शामिल हैं। ई-वोटिंग के लिए मतदाताओं को प्ले स्टोर से SECBHR ऐप डाउनलोड करना होगा। इसमें अपनी फोटो अपलोड कर पंजीकरण कराना होगा। अनुमंडल



पदाधिकारी ने बताया कि यह तकनीक पूरी तरह सुरक्षित है। नौबतपुर नगर पंचायत में 15 वार्ड हैं। यहां लगभग 18 से 20 हजार मतदाता हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इसके लिए 30 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अध्यक्ष पद के लिए 6 और उपाध्यक्ष पद के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। जागरूकता अभियान में नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी रोशन कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी भी मौजूद थे।

सीवान में पीएम की जनसभा को लेकर तैयारियां जोरों पर, मंगल बोले: यह जनसभा होगी ऐतिहासिक

सीवान। बिहार के स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री मंगल पांडेय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित सीवान दौर का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 20 जून को सीवान जिले के जसौली गांव में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री प्रदेश को 9518 करोड़ रुपये की महत्वकांक्षी योजनाओं की सौगात देंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का बार-बार बिहार आना राज्य के प्रति उनके विशेष लगाव और विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हर बार की तरह इस बार भी बिहार को बड़ी योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने जानकारी दी कि इस दौर में प्रधानमंत्री वाटर



ट्रीटमेंट प्लांट की सौगात देंगे, जिससे कई जिलों की गरीबी और ग्रामीण आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें कि सीवान में जनसभा की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। जसौली गांव में होने वाले कार्यक्रम के लिए पांच विशाल शेड तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक में लगभग 60 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था

की गई है। आयोजन स्थल पर लगातार तैयारियों की निगरानी जिला प्रशासन और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी कर रहे हैं। दिन-रात काम जारी है, ताकि किसी भी प्रकार की कमी न रह जाए। पीएम मोदी के कार्यक्रम का संयोजन कर रहे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि सीवान ही नहीं, सारण प्रमंडल के सभी जिलों सारण, सीवान और गोपालगंज में उत्साह चरम पर है। भाजपा कार्यकर्ता और आम लोग दोनों इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने को उत्सुक हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र में एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के गठन के बाद पिछले नौ महीनों में यह प्रधानमंत्री का छठा बिहार दौरा होगा। इससे पहले वे

दरभंगा, जमुई, भागलपुर, झंझारपुर और विक्रमगंज का दौरा कर चुके हैं। मंगल पांडेय ने दावा किया कि यह जनसभा न केवल भीड़ के लिहाज से ऐतिहासिक होगी, बल्कि इसमें घोषित होने वाली योजनाएं भी राज्य के विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के जिला से लेकर राज्य स्तर के नेता, कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरी तरह जुटे हुए हैं। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा, यातायात, बैठने की व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि यह रैली आगामी राजनीतिक माहौल में भी अहम भूमिका निभाएगी।

बिहार में पुलिसिंग को मिली नई रफ्तार

सीएम नीतीश कुमार ने 618 पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 01 अग्रे मार्ग से पुलिस के उपयोग हेतु 520 कार पहिया एवं 98 दो पहिया वाहनों का लोकार्पण किया और इस दौरान उन्होंने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने पुलिस वाहनों के लोकार्पण के पूर्व उसका निरीक्षण किया और उसकी कार्य प्रणाली के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पुलिस वाहनों की उपलब्धता से राज्य में पुलिसिंग की कार्य क्षमता तथा दक्षता और बढ़ेगी। साथ ही विधि व्यवस्था को मॉटेन करने में और सहूलियत होगी। कार्यक्रम की शुरुआत में पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने मुख्यमंत्री को हरित पौधा भेंटकर स्वागत किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन सह संसदीय कार्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के



प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव अमृतलाल मोणा, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी, अपर पुलिस महानिदेशक, स्पेशल ब्रांच सुनील कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय कुंदन कृष्णन, अपर पुलिस महानिदेशक, प्रोविजनिंग अजिताभकुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, गृह विभाग के सचिव प्रणव कुमार,

पुलिस महानिदेशक, पटना रेंज गरिमा मलिक सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने मुख्यमंत्री को हरित पौधा भेंटकर स्वागत किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन सह संसदीय कार्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव अमृतलाल मोणा, पुलिस महानिदेशक विनय

कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी, अपर पुलिस महानिदेशक, स्पेशल ब्रांच सुनील कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय कुंदन कृष्णन, अपर पुलिस महानिदेशक, प्रोविजनिंग अजिताभकुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, गृह विभाग के सचिव प्रणव कुमार, पुलिस महानिदेशक, पटना रेंज गरिमा मलिक सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे।

लोगों की संपत्ति होगी जब्त, पुलिस अफसरों ने तैयार की लिस्ट

बेतिया। बेतिया, बगहा व मोतिहारी पुलिस ने आपराधिक कृत्य से अर्जित की गई संपत्ति जब्त करने की कवायद शुरू कर दी है। चंपारण रेंज के डीआईजी हरकिशोर राय प्रत्येक सप्ताह इसकी समीक्षा कर रहे हैं। डीआईजी के आदेश पर रेंज के सभी एसडीपीओ ने अपने क्षेत्र से दो-दो ऐसे व्यक्तियों के नाम और पूरा ब्योरा उपलब्ध कराया है, जिन्होंने आपराधिक कृत्य से अर्जित संपत्ति अर्जित की है। बेतिया के पुलिस अधीक्षक डॉ. शौर्य सुमन ने जगदीशपुर के नवका टोला निवासी सरोज सहनी की संपत्ति को जब्त करने का प्रस्ताव आर्थिक अपराध यूनिट को भेजा है। सदर् एसडीपीओ टू रजनीकांत प्रियदर्शी ने सरोज सहनी के अपराधिक कारनामों का ब्योरा एकत्रित कर रिपोर्ट तैयार की थी। पुलिस के अनुसार, सरोज सहनी स्त्री माफिया है, जिसके खिलाफ जगदीशपुर, नगर व मुफरिसल थाना में मामला दर्ज है। एसडीपीओ की



रिपोर्ट के आधार पर सरोज सहनी को जिला बंदर कर दिया गया है। अब सरोज सहनी द्वारा अपराध से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने के लिए पीएमएलए का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक ने आर्थिक अपराध यूनिट को भेजा है। एसडीपीओ की रिपोर्ट के आधार पर सरोज सहनी को जिला बंदर कर दिया गया है। अब सरोज सहनी द्वारा अपराध से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने के लिए पीएमएलए का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक ने आर्थिक अपराध यूनिट को भेजा है। आर्थिक अपराध यूनिट मामले की जांच कर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भेजेगी। उसके बाद उसकी संपत्ति जब्त किया जाएगा।

इस चर्चित सीट पर गरमाई सियासत

हवेली खड़गपुर (मुंगेर)। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा में अभी तीन महीने की देरी है, लेकिन तारापुर विधानसभा में टिकट की चाहत वालों की भागदौड़ अभी से ही तेज हो गई है। तारापुर विधानसभा से सत्ता पक्ष और विपक्ष में प्रेशर पॉलिटिक्स तेज हो गई है। सत्ता पक्ष के वर्तमान में जदयू विधायक राजीव कुमार सिंह है। विधायक नीतीश सरकार की उपलब्धियों से क्षेत्र की जनता को अवगत करा रहे हैं वहीं, सरकार के विकास योजनाओं को लेकर लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। सत्ता पक्ष में कई दवेदार टिकट की चाहत में पाने की दौड़ में अभी से ही शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। जिसमें इंजीनियर रोहित चौधरी और पुलिस अधिकारी राजेश कुशवाहा शामिल हैं। इंजीनियर रोहित के पिता शकुनी चौधरी तारापुर से छह बार विधानसभा चुनाव में अपनी परचम लहरा चुके हैं। जबकि इंजीनियर रोहित की मां दिवंगत



पार्वती देवी विधायक एक बार विधायक रह चुकी है। इंजीनियर के पिता राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाते हैं और स्वास्थ्य मंत्री पद को सुशोभित कर चुके हैं। जबकि इंजीनियर के भाई सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। इंजीनियर पिछली बार तारापुर विधानसभा उप चुनाव में लड़ने का मन बना चुके थे। इन्हें मुंगेर के सांसद सह केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने जदयू में शामिल कर मना लिया था। इस बार के चुनाव की तैयारी के लिए वे क्षेत्र का दौरा कर लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं। वहीं, नीतीश कुमार के करीबी रहे एक पुलिस अधिकारी राजीव कुशवाहा भी टिकट की चाहत में लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। उधर ईडी गठबंधन की ओर

से यह सीट राजद को मिलना तय है। पिछली उप चुनाव में राजद ने इस सीट पर अरुण साह को मैदान में उतारा था, लेकिन कड़ी टक्कर के बावजूद उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बार के चुनाव में इंडिया गठबंधन की ओर से कई दवेदार अभी से ही सक्रिय हो गए हैं। अरुण साह पुनः टिकट पाने के लिए लगातार क्षेत्र भ्रमण कर जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। इधर सूत्रों की मानें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव अपनी पुत्री दिव्या प्रकाश को टिकट दिलाने की जुगत में लगे हुए हैं। वहीं, राजद नेता जितेंद्र कुशवाहा भी अपनी दवेदारी के लिए क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं। जबकि पूर्व विजली चोरी का मामला पकड़ा गया है, जिला पार्षद शैलेश कुमार उर्फ मंटू यादव भी टिकट की चाहत वालों में शामिल हैं। अब देवना है कि चुनाव में किनकी दवेदारी मजबूत होगी और कौन असली हकदार होंगे यह तो आनेवाला समय ही बताएगा।

शहर में सड़कों पर उतरी बिजली विभाग की टीम, जूनियर इंजीनियर के एक्शन से हड़कंप

नरकटियागंज। विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल क्षेत्र अंतर्गत शहर में विद्युत एसडीओ चंदन कुमार के नेतृत्व में सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान शहरी जेई गौतम कुमार व टीम ने बिजली चोरी के मामले में 11 लोगों को पकड़ा है। जेई गौतम कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि धराए सभी लोगों पर शिकारपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। वहीं, सभी लोगों से बकाया समेत सात लाख 36399 जुमाना किया गया है। जेई ने बताया कि जिन लोगों के यहां बिजली चोरी का मामला पकड़ा गया है, उनमें शहर के वार्ड संख्या 21 हरदिया के कमलेश शर्मा पर 25084 रुपये बकाया है। वहीं वार्ड 20 हरदिया के संजय मिश्रा पर 229454 रुपये, ब्लॉक रोड वार्ड 23 के आदित्य शंकर पर 82452 रुपये, चौबे टोला वार्ड 23 के प्रियांशु कुमार पाठक पर 23214, डिउलिया वार्ड 24 के वीरेंद्र




पासवान पर 27632 रुपये, वार्ड 25 के भूखल दास पर 32588 रुपये, नेयाज आलम पर 29300 एवं रूस्तम पर 38918 रुपये, नंदपुर वार्ड चार के परवेज आलम पर 103542 रुपये, अजय प्रसाद पर 38748, आर्यमंजज रोड वार्ड 12 के प्रमोद दूबे पर 105467 रुपये बकाया राशि है। उक्त सभी लोग मीटर बाईपास कर,

स्माट मीटर बाईपास अथवा टोका फंसाकर बिजली चोरी कर रहे थे। इधर, विद्युत एसडीओ चंदन कुमार ने बताया कि शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बिजली चोरी करने वालों में पूरे दिन हड़कंप मचा रहा। इस छापेमारी में विद्युत कर्मी रमेश कुमार पांडेय, जितेंद्र कुमार, नगीना मुखिया, सुरज कुमार, बृजकिशोर कुमार, राहुल यादव, रूपेश कुमार आदि शामिल रहे। उक्त सभी लोग मीटर बाईपास कर, स्माट मीटर बाईपास अथवा टोका फंसाकर बिजली चोरी कर रहे थे। इधर, विद्युत एसडीओ चंदन कुमार ने बताया कि शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बिजली चोरी करने वालों में पूरे दिन हड़कंप मचा रहा। इस छापेमारी में विद्युत कर्मी रमेश कुमार पांडेय, जितेंद्र कुमार, नगीना मुखिया, सुरज कुमार, बृजकिशोर कुमार, राहुल यादव, रूपेश कुमार आदि शामिल रहे।

कंप मचा रहा। इस छापेमारी अभियान में विद्युत कर्मी रमेश कुमार पांडेय, जितेंद्र कुमार, नगीना मुखिया, सुरज कुमार, बृजकिशोर कुमार, राहुल यादव, रूपेश कुमार आदि शामिल रहे। उक्त सभी लोग मीटर बाईपास कर, स्माट मीटर बाईपास अथवा टोका फंसाकर बिजली चोरी कर रहे थे। इधर, विद्युत एसडीओ चंदन कुमार ने बताया कि शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बिजली चोरी करने वालों में पूरे दिन हड़कंप मचा रहा। इस छापेमारी में विद्युत कर्मी रमेश कुमार पांडेय, जितेंद्र कुमार, नगीना मुखिया, सुरज कुमार, बृजकिशोर कुमार, राहुल यादव, रूपेश कुमार आदि शामिल रहे।

कब और किसे नहीं खाना चाहिए कद्दू



कद्दू विटामिन ए से भरपूर होता है। यह त्वचा, हड्डी और दांतों को स्वस्थ बनाए रखने में भी मदद करता है। इसके अलावा ये फाइबर से भरपूर है जो कि कई बीमारियों से बचाता है। ये पेट का मेटाबोलिक रेट बढ़ाता है और पाचन क्रिया को तेज करता है। कद्दू में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जैसे अल्फा-कैरोटीन, बीटा-कैरोटीन और बीटा-क्रिप्टोवैलैन्थिन। ये एंटीऑक्सीडेंट मुक्त कणों को बेअसर कर सकते हैं और आपकी कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचा सकते हैं। लेकिन, हर स्थिति में कद्दू खाना

फायदेमंद नहीं है। क्यों जानते हैं इस बारे में।

पेट सही न हो तो कद्दू न खाएं : कद्दू खाना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल (जीआई) इंफेक्शन से जुड़े लक्षणों को बढ़ा सकता है। इसकी वजह से आपको फूड एलर्जी हो सकती है। इससे अलावा कद्दू खाना पाचन क्रिया को प्रभावित कर सकता है जिससे समस्याएं और बढ़ सकती हैं।

फूड प्वाइजनिंग हो सकती है : कद्दू खाना बैक्टीरिया, वायरस और अन्य रोगजनकों को प्रसारित कर सकता है जो बीमारी का कारण बन सकते हैं। ये फूड प्वाइजनिंग की वजह बन सकता है और आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकता है। इसे खाने के बाद उल्टी, मतली और कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं और ये दस्त समेत शरीर को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।

गर्भवती हैं या स्तनपान कराने वाली मां : जो लोग

गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं, उन्हें इसे खाने से बचना चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन करने से पहले हमेशा अपने आहार के बारे में डॉक्टर से जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसे खाना उनके लिए सुरक्षित है या नहीं।

कुछ दवाओं के कारण नुकसान : कद्दू के पोषक तत्व शरीर को पानी की मात्रा को जल्दी से खत्म करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं यानी कि डिहाइड्रेट कर सकते हैं। जो इस बात पर असर डाल सकता है कि शरीर लिथियम जैसी कुछ दवाओं को कैसे अवशोषित करता है। इसलिए दवाओं के साथ कद्दू खाने से बचें।

लो बीपी में : कद्दू के बीज में बीटा कैरोटीन और मैग्नीशियम होता है जो ब्लड प्रेशर के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन, अगर आप हाई बीपी की दवाओं जैसी दवाओं का उपयोग कर रहे हैं, तो अपने आहार में कद्दू को शामिल करने से पहले डॉक्टर से बात करें। तो, इन तमाम स्थितियों में कद्दू खाने से बचें।

खाना खाने के कितनी देर के बाद पानी पीना चाहिए?

कुछ लोग खाना खाने से पहले पानी पीते हैं, तो वहीं कुछ लोग खाना खाते-खाते पानी पी लेते हैं और कुछ लोग खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाना खाते-खाते या फिर खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने की वजह से आपको सेहत से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? आइए जानकारी हासिल करते हैं कि आखिर आपको खाना खाने के कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए।

30 मिनट के बाद पिएं पानी

आयुर्वेद के मुताबिक आपको खाना खाने के कम से कम 20-30 मिनट के बाद ही पानी पीना चाहिए। अगर आप खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पीते हैं, तो आपके डाइजैस्टिव सिस्टम पर बुरा असर नहीं पड़ता है। यानी अगर आप अपने डाइजैस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो आपको खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से बचना चाहिए।

खाने के तुरंत बाद पानी पीने से क्या होता है?

खाने के तुरंत बाद पानी पीने से आपकी गट हेल्थ बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। आपकी इस आदत की वजह से आपको पेट से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खाने के एकदम बाद पानी पीने से डाइजेशन प्रोसेस धीमा हो जाता है। यही वजह है कि आयुर्वेद में खाने के तुरंत बाद पानी पीने से मना किया जाता है।

गौर करने वाली बात

आयुर्वेद के मुताबिक खाने को अच्छी तरह से चबाकर खाना चाहिए। अगर आप बड़ी-बड़ी बाइट्स बिना चबाए निगल जाएंगे, तो आपकी गट हेल्थ पर नेगेटिव असर पड़ सकता है और आप पेट से जुड़ी समस्याओं का शिकार बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका खाना अच्छी तरह से डाइजैस्ट हो पाए, तो आपको खाने और सोने के बीच में भी कम से कम दो से तीन घंटे का गैप रखना चाहिए।



मधुमेह के मरीज रोज सुबह खाली पेट पी लें इस सूखे पत्ते की चाय

रसोई में ऐसे कई मसाले हैं जिनका इस्तेमाल बीमारियों में दवा का काम करता है। शुगर से लेकर हाई ब्लड प्रेशर तक को कंट्रोल करने में ये मसाले या पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। मधुमेह में कई घरेलू नुस्खे असरदार साबित होते हैं। जिनका लगातार इस्तेमाल करने से शरीर में ब्लड शुगर कंट्रोल होने लगता है। ऐसा ही सूखा पत्ता है तेज पत्ता, जिसका इस्तेमाल गरम मसाले में करते हैं। तेज पत्ता काफी खुशबूदार होता है। डायबिटीज के मरीज अगर सुबह खाली पेट तेज पत्ता की चाय बनाकर पीते हैं तो इससे शुगर को कम करने में फायदा मिलता है।

तेज पत्ता को सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। तेज पत्ता में भरपूर एंटी-ऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं। ये सभी पोषक तत्व डायबिटीज में असरदार साबित होते हैं। तेज पत्ता में आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, सेलेनियम और कॉपर होता है। कुछ दिनों तक नियमित रूप से तेज पत्ता का पानी या

चाय पीने से पुरानी से पुरानी डायबिटीज को कम किया जा सकता है।

शुगर में तेजपत्ता के फायदे

आयुर्वेदिक डॉक्टरों की मानें तो शुगर को कम करने के लिए कई तरह की जड़ी बूटियां हैं जो आपके घर में भी आसानी से मिल जाती हैं। आचार्य बालकृष्ण की मानें तो डायबिटीज में तेज पत्ता काफी फायदेमंद है। कई रिसर्च में भी ये सामने आ चुका है कि डाइट और एक्सरसाइज के साथ कुछ आयुर्वेदिक उपाय करने से शुगर कम होने लगती है। ऐसा करने से इंसुलिन फंक्शन में सुधार आता है।

शुगर में तेज पत्ता की चाय?

तेज पत्ता का इस्तेमाल खाने में तो सभी करते हैं। लेकिन डायबिटीज के मरीज को इसकी चाय या पानी पीना चाहिए। तेज पत्ता की चाय बनाने के लिए 1 तेज पत्ता 1 गिलास पानी में डालकर रातभर के लिए भिगो दें। सुबह इस पानी को उबालकर

छानकर पी लें। आप चाहें तो अपनी नॉर्मल दूध वाली चाय में भी तेज पत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा तेज पत्ता की चाय में थोड़ी दालचीनी, इलायची और तुलसी डालकर भी इसे तैयार कर सकते हैं। नॉर्मली आप सुबह खाली पेट तेज पत्ता का पानी पी सकते हैं। इससे धीरे-धीरे ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होने लगेगा।

इन बीमारियों में फायदा करता है तेज पत्ता

तेज पत्ता न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि कई बीमारियों में भी असरदार काम करता है। तेज पत्ता का सेवन करने से पेट की समस्या जैसे कब्ज, एसिडिटी, मरोड़ और दर्द को कम किया जा सकता है। अगर किडनी में स्टोन हो रहे हैं तो तेज पत्ता का पानी पीने से फायदा मिलेगा। जिन लोगों को नींद की समस्या रहती है। वो तेज पत्ता के तेल की कुछ बूंदें पानी में डालकर पी लें। जोड़ों पर तेज पत्ता के तेल से मसाज करना राहत पहुंचाता है।

सेहत के लिए वरदान साबित होगी लेमनग्रास टी

क्या आप जानते हैं कि सही मात्रा में और सही तरीके से लेमनग्रास चाय पीने से आप सेहत से जुड़ी कई समस्याओं को काफी हद तक दूर कर सकते हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लेमनग्रास टी में विटामिन ए, विटामिन सी, जिंक, कॉपर, आयरन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट समेत कई पोषक तत्वों की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स अक्सर लेमनग्रास टी पीने की सलाह देते हैं। आइए इसके पीछे छिपे कुछ कारणों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं।

गट हेल्थ के लिए फायदेमंद

लेमनग्रास टी में पाए जाने वाले तमाम तत्व आपकी गट हेल्थ को काफी हद तक सुधार सकते हैं। एसिडिटी और पेट दर्द जैसी पेट से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप लेमनग्रास टी का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा लेमनग्रास टी आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर आपकी वेट लॉस जर्नी को भी काफी हद तक आसान बना सकती है।

बूस्ट करे इम्यूनिटी



विटामिन सी रिच लेमनग्रास टी को रेगुलरली कंज्यूम करने से आप अपने इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बना सकते हैं। लेमनग्रास टी न केवल कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बल्कि आपकी हार्ट हेल्थ को सुधारने में भी कारगर साबित हो सकती है। जोड़ों के दर्द की समस्या से छुटकारा पाने के लिए भी लेमनग्रास टी का सेवन किया जा सकता है।

मेंटल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लेमनग्रास टी न केवल आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर आप तनाव और चिंता को कम करना चाहते हैं, तो लेमनग्रास टी पीना शुरू कर दीजिए। कुल मिलाकर अपनी ओवरऑल हेल्थ को सुधारने के लिए लेमनग्रास टी को अपने डेली डाइट प्लान का हिस्सा बनाया जा सकता है।

फायदा ही नहीं सेहत को नुकसान भी पहुंचाता है ओट्स

जानें किन लोगों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए?

ओट्स का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। यह सुपरफूड अपने हाई फाइबर और हृदय स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। रात भर भिगोए गए ओट्स से लेकर ओट्स चीला तक, इस अनाज को खाने के कई तरीके हैं। यानी नाश्ते के लिए ओट्स एक हेल्दी विकल्प है, लेकिन कुछ लोगों को इसे नहीं खाना चाहिए। चलिए जानते हैं वे लोग कौन हैं?

किन लोगों को नहीं खाना चाहिए ओट्स :

एलर्जी होने पर : ओट्स से एलर्जी बच्चों और वयस्क दोनों को प्रभावित कर सकती है। ओट्स एलर्जी के लक्षणों में पित्ती, जठरांत्र संबंधी, श्वसन संबंधी समस्याएं शामिल हैं। इसलिए, ओट्स से एलर्जी वाले लोगों को ओट्स के उत्पादों का सेवन करने से बचना चाहिए।

इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से पीड़ित : ओट्स में घुलनशील फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। लेकिन, ओट्स में मौजूद हाई फाइबर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वाले लोगों में यह समस्या हो सकती है। इससे पेट में सूजन, गैस और तकलीफ पैदा हो सकती है।

मिनिरल्स की कमी होने पर : ओट्स में फाइबरिक एसिड होता है, जो एक एंटीन्यूट्रिएंट है जो कैल्शियम, आयरन और जिंक जैसे आवश्यक मिनिरल्स से जुड़ सकता है, जिससे शरीर में अवशोषण कम हो जाता है। हालांकि यह स्वस्थ लोगों के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन जिन लोगों में मिनिरल्स की कमी है या जो लोग मुख्य रूप से ओट्स खाते हैं, उन्हें कम मात्रा में ओट्स खाना चाहिए।

किडनी की बीमारी से पीड़ित लोग : ओट्स में फॉस्फोरस की मात्रा अधिक होती है, जो किडनी के लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए किडनी की बीमारी वाले लोगों को ओट्स खाने से बचना चाहिए।

डायबिटीज के मरीज : ओट्स में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ा सकते हैं, इसलिए डायबिटीज के मरीजों को डॉक्टर से सलाह लेकर ही ओट्स खाना चाहिए।



खाने के बाद करें 10 मिनट की वॉक

रोजाना वॉक करके आप सेहत से जुड़ी कई समस्याओं को दूर भगा सकते हैं। लेकिन क्या आप खाना खाने के बाद वॉक करने के कुछ कमाल के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं? दादी-नानी के जमाने से खाना खाने के बाद वॉक करने की सलाह दी जाती रही है। जो लोग रेगुलरली टहलते हैं, उनका शरीर बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा ताकतवर बन जाता है। आइए जानते हैं कि खाना खाने के बाद वॉक क्यों करनी चाहिए... आपको हर रोज खाना खाने के बाद महज 10 मिनट निकालकर टहलना चाहिए। एक हफ्ते तक इस नियम को बिना तोड़े फॉलो कीजिए और आपको खुद-ब-ब-खुद पॉजिटिव असर देखने को मिल जाएगा। हालांकि, खाना खाने के बाद आपको ज्यादा तेज स्पीड में वॉक नहीं करनी चाहिए वरना आपके शरीर पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव असर भी पड़ सकता है।

मिलेंगे फायदे ही फायदे - खाने के बाद वॉक करने से आप अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको इस नियम को जरूर फॉलो करना चाहिए। खाने के बाद वॉक करने से न केवल आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट किया जा सकता है बल्कि आपकी गट हेल्थ को भी काफी हद तक सुधारा जा सकता है।

भारी बारिश में कुआं दहा, दो स्कूली छात्र मिट्टी में दबे

खुटी (एजेंसी)। झारखंड के खुटी जिले में भारी बारिश के कारण एक कुआं दहन से दो स्कूली छात्र मिट्टी के नीचे दब गए। प्रशासन ने बताया कि मुरहू पंचायत में यह घटना तब हुई जब दोनों छात्र कुएं के करीब थे। प्रशासन ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के एक टुक को बचाव अभियान में तैनात किया है, लेकिन मिट्टी में दबे छात्रों का अभी पता नहीं चल सका है। भारी बारिश के कारण खुटी के तोरपा में बनाई नदी पर पुल का एक हिस्सा भी ढह गया है जिससे खुटी-सिमडेगा सड़क मार्ग बाधित हो गया है। एक अधिकारी ने बताया कि रांची सहित कई जिलों में भारी बारिश के कारण जनजीवन बाधित हो गया है। भारी बारिश के मद्देनजर बुधस्पातियार को रांची और खुटी सहित कई जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं। एनडीआरएफ अधिकारियों ने बताया कि इन जिलों में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए दल तैयार है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि रांची में बीते दो दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है और गुरुवार सुबह से तेज बारिश हो रही है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने रांची, लोहरागा, गुमला, खुटी और सिमडेगा के लिए अत्यधिक भारी बारिश का 'रेड अलर्ट' जारी किया गया है।

असम में फिर एक गद्दार की गिरफ्तारी, पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट कर रहा था सफ़ीक़ुल हक

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश के अंदर भी कई दूरम नकाब पहन कर घूम रहे हैं, जो समय-समय पर देश के खिलाफ साजिश रचते हैं या साजिश रचने वालों की मदद करते हैं। पहलगाम हमले के बाद ज्योति मल्लोत्रा रहित कई जासूसों को गिरफ्तार किया गया। इसी कड़ी में असम राज्य से अब तक सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां इन गद्दरों की हुई हैं। सोशल मीडिया पर 'पाकिस्तान समर्थक और सांप्रदायिक पोस्टर' साझा करने के आरोप में असम में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। राज्य में इस तरह के मामलों में अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या 94 हो गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने यह जानकारी दी। सीएम शर्मा ने बताया कि आरोपी पर लगातार नजर रखी जा रही थी और नलबाड़ी से गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री ने पोस्ट कर बताया कि कामरूप पुलिस ने सफ़ीक़ुल हक को गिरफ्तार किया है, जो अलग-अलग सिम कार्ड का इस्तेमाल कर फेसबुक पर पाकिस्तान के समर्थन में और सांप्रदायिक पोस्ट साझा कर रहा था। पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, जो कथित तौर पर 'भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक गतिविधियों' में लिप्त हैं। विपक्षी 'ऑल इंडिया युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट' (एआईयूडीएफ) के विधायक अमीनूल इस्लाम को पाकिस्तान और पहलगाम आतंकवादी हमले में उसकी मिलीभगत का बचाव करने के लिए देरवाह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में जमानत मिलने के बाद उन पर रासुका के तहत मामला दर्ज किया गया।

भय के वातावरण के बाद अब पटरी पर लौट रहा जम्मू-कश्मीर का पर्यटन

श्रीनगर (एजेंसी)। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस असुरक्षा और भय का वातावरण पैदा होने की बात कही जा रही थी, वह अब खत्म हो रहा है। कश्मीर तक बढ़े भारत ट्रेन के चलने और अमरनाथ यात्रा से पर्यटन फिर पटरी पर लौटने लगा है, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। पर्यटकों की बढ़ती भीड़ और अमरनाथ यात्रा को देखते हुए सरकार ने बैसरन हमले के बाद बंद किए गए 50 पर्यटन स्थलों में से 16 को फिर खोल दिया है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार अन्य पर्यटन स्थलों को भी जल्द ही खोल देगी। चंद दिनों में अमरेश्वर धाम की तीर्थयात्रा भी शुरू हो रही है। यह तीर्थयात्रा भी आतंकियों के निशाने पर रहती है। अगर तीर्थयात्रा आतंकी अपने किसी नापाक मसूदे में सफल रहते है तो कश्मीर का पर्यटन पूरी तरह से पटरी से उतर जाएगा। ऐसा हुआ तो कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा नुकसान पहुंचेगा। आम लोगों को भी ऐसे तत्वों के प्रति सचेत रहना होगा जो माहौल बिगाड़ने का षडयंत्र रच रहे हैं। इसलिए सुरक्षातंत्र में किसी भी तरह के समझौते की गुंजाइश नहीं है।

बेंगलुरु में मिले मानव कंकाल से सनसनी, पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा

बेंगलुरु (एजेंसी)। कर्नाटक की राजधानी और भारत की सिलिकॉन वेली के नाम से मशहूर बेंगलुरु की एक हाउसिंग सोसाइटी में मानव कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है। मामले की जानकारी मिलते ही हरकत में आई स्थानीय पुलिस ने मानव खोपड़ी और कंकाल को जब्त कर छानबीन शुरू कर दी गई है। फिलहाल इसे फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजा गया है। जानकारी के अनुसार, बेंगलुरु के मिर्को लेआउट स्थित बेगूर के एक अपार्टमेंट परिसर क्रेडेंस पलारा में रह रहे निवासियों को उस समय गहरा झटका लगा जब सफाई के दौरान परकोलेशन पिट (आमतौर पर बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए बनाया गया गड्ढा) से मानव खोपड़ी और हड्डियां बरामद हुईं। यह सनसनीखेज घटना 16 जून को उस समय सामने आई जब रेंजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा सफाई का कार्य चलाया जा रहा था। इस मामले की शिकायत अध्यक्ष कारिया जी ने दर्ज की है, जिसके आधार पर बेगूर पुलिस ने अननुरल डेय का मामला दर्ज किया है। बरामद खोपड़ी और हड्डियों को आगे की जांच के लिए फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस को एक्सपर्ट की रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे मुक्त की उम्र और मौत के समय से जुड़ी जानकारी सामने आ सकती है। कारिया जी ने अपनी शिकायत में बताया कि अपार्टमेंट परिसर में मौजूद 16 परकोलेशन पिट्स काफी समय से काम नहीं कर रहे थे, जिसके चलते नगर निकाश की ओर से नोटिस भी जारी हुआ है। इसी कारण पिट्स की सफाई के लिए एक टुक दिया था। सफाईकर्मियों ने जब एक पिट को साफ करना शुरू किया, तो उसमें से उन्हें मानव अवशेष दिखाई दिए।

3000 के फास्टैग पास का फायदा देश के कई शहरों को नहीं मिलेगा

-कई हाईवे और एक्सप्रेसवे राज्य या निजी कंपनियों कर रही हैं ऑपरेट

नई दिल्ली (एजेंसी)। सड़क परिवहन मंत्रालय ने तीन हजार रुपए सालाना पास का ऐलान किया है। इससे सालभर में आप 200 ट्रिप एनएच के टोल प्लाजा से फ्री में गुजर सकते हैं। इससे उन लोगों को फायदा होगा, जो एनएच के टोल से गुजरते हैं, लेकिन देश में बहुत से एक्सप्रेस-वे और हाईवे ऐसे हैं, जिन पर आपको टोल चुकाना होगा। देश में कई हाईवे और एक्सप्रेसवे राज्य सरकारों या बीओटी मॉडल के तहत निजी कंपनियों द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं।



प्राधिकरण राज्य के अधिकांश एक्सप्रेसवे का निर्माण और संचालन करता है। यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे, लंबाई- 594 किमी यह राज्य सरकार की परियोजना है, इसलिए नया फास्टैग नियम इस पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई-340.8 किमी है। बुदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई 296 किमी आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई 302 किमी शामिल है। वहीं मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, जिसे

कर्नाटक सड़क विकास निगम लिमिटेड और सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रमुख परियोजनाओं का प्रबंधन करते हैं। बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे-लंबाई 119 किमी, शिवमोग्गा-हावेरी एक्सप्रेसवे- लंबाई 200 किमी प्रस्तावित है। तमिलनाडु सड़क विकास कंपनी और राज्य राजमार्ग विभाग प्रमुख परियोजनाएं संचालित करते हैं। चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेसवे-लंबाई-262 किमी (तमिलनाडु हिस्सा) इस्ट कोस्ट रोड (ईसीआर)-लंबाई 160 किमी है। वहीं गुजरात राज्य सड़क विकास निगम कई परियोजनाएं संचालित है। अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे-दलंबाई 93.1 किमी, राजकोट-जामनगर एक्सप्रेसवे लंबाई 117 किमी है आंध्र प्रदेश में अमरावती-अनंतपुर एक्सप्रेसवे (176 किमी, निर्माणाधीन)। केरल का कोच्चि-मदुरै एक्सप्रेसवे (227 किमी, प्रस्तावित) है।

संजय कपूर की मौत मधुमक्खी के काटे से नहीं हुई, विशेषज्ञ ने बताई वजह



नई दिल्ली (एजेंसी)। देश के जाने-माने विजनेसमैन और बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर की 12 जून को इंग्लैंड में पोले मैच के दौरान मौत हो गई थी। इस मौत का कारण मधुमक्खी का डंक बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्टों की वजह से ही कि संजय कपूर को पहले से ही मधुमक्खी के डंक से एलर्जी थी। ऐसे में संजय कपूर की जो मौत हुई है वह असल में एक गंभीर एलर्जी की वजह से हुई है, जिसे एनाफिलैक्सिस कहा जाता है। यह गंभीर एलर्जी किसी चीज के संपर्क में आने से जैसे धूल, खाना, परपम्य या मिट्टी या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसके संपर्क में आने से आपके शरीर पर दाने हो जाएं, आपको खांसी, सांस लेने में दिक्कत, होठों पर सूजन या बल्ल्ड प्रेशर लगे, तो समझ लीजिए कि आपको उस चीज से एलर्जी है और आप सावधानी कर्नी शुरू कर दें।

राजा हत्याकांड: रिमांड पूरी, हत्यारों को शिलॉन्ग कोर्ट में पेश करेगी पुलिस

-आरोपियों की हिरासत बढ़ाने करेगी आग्रह, पूछताछ में रो पड़ती है सोनम

इंदौर (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के इंदौर के चर्चित व्यापारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में गिरफ्तार पांचों आरोपियों को शिलॉन्ग की जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया जाएगा। इन सभी की आठ दिन की पुलिस रिमांड आज समाप्त हो रही है। मेघालय पुलिस अब आरोपियों की हिरासत बढ़ाने को आग्रह करेगी, ताकि जांच को और गहराई से आगे बढ़ाया जा सके। यह मामला सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि एक गहरे षडयंत्र की प्लॉट को उजागर कर रही है, जिसमें पत्नी, प्रेमी और पेशेवर हत्यारों की भूमिका सामने आई है। इंदौर के राजा रघुवंशी को उनकी पत्नी सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर मरवाया था। इस साजिश को अंजाम देने के लिए उन्होंने तीन बदमाश आनंद सिंह कुर्मी, आकाश राजपुत और विशाल सिंह चौहान को पैसे देकर हथियार किया था। हत्या की साजिश उस वक्त रची गई जब सोनम और राजा मेघालय में हनीमून मनाने गए थे।



जानकारी के मुताबिक सोनम पहले से ही अपने प्रेमी राज कुशवाहा के संपर्क में थी और उसी दौरान योजना बनाई गई कि मेघालय में राजा की हत्या कर दी जाएगी। बता दें राजा रघुवंशी का शव 2 जून को एक सुप्तान पहाड़ी इलाके में मिला था।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर घावों के निशान मिले हैं, जिससे साबित होता है कि उनकी बेइतमी से हत्या की गई थी। घटना के बाद मेघालय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी पांचों आरोपियों को सोनम, राज कुशवाहा, आनंद, आकाश और विशाल को गिरफ्तार कर लिया था। इन्हें 11 जून को शिलॉन्ग की जिला एवं सत्र अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें आठ दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। पुलिस पूछताछ में सोनम ने राजा की हत्या की साजिश में शामिल होने की बात कबूल की है। वहीं पुलिस ने सभी आरोपियों का आमना-सामना करार पर परिस्थितिजन्य सस्थों की पुष्टि भी की। पूछताछ में सोनम कई बार रो पड़ीं और अपने मोबाइल फोन के न मिलने की बात बताईं। अब पुलिस जांच मेघालय से इंदौर की ओर मुड़ गई है। मेघालय पुलिस की एक विशेष टीम इंदौर पहुंची, जहां वह सोनम और राजा के परिवारजनों से पूछताछ कर रही है।

देश में कमजोर पड़ रहा कोविड-19 संक्रमण, बीते 24 घंटे में सक्रिय मामलों में गिरावट

नई दिल्ली। कोविड-19 संक्रमण का नया वैरिएंट अब कमजोर होता दिख रहा है। इससे संक्रमण के सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। आम लोगों और सरकारों के लिए ये बड़ी राहत है। फिलहाल भारत में कोविड संक्रमण के सक्रिय केस घटकर 6 हजार से नीचे आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड को लेकर 19 जून की सुबह 8 बजे तक के आंकड़े जारी किए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, पूरे देश में 507 संक्रमण के मामले कम हुए हैं। इससे कुल सक्रिय केस घटकर 5976 बचे हैं। गुजरात को सबसे बड़ी गिरावट कर्नाटक में दर्ज की गई, जहां संक्रमण के 187 केस घटे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटों में कर्नाटक के अलावा राजस्थान में 83, केरल में 75, गुजरात में 59, महाराष्ट्र में 46, उत्तर प्रदेश में 18 और आंध्र प्रदेश में 13 सक्रिय केस घटे हैं। हरियाणा में 9, मध्य प्रदेश में 7, झारखंड में 6, बिहार में 3, जम्मू कश्मीर में 2 और तेलंगाना-छत्तीसगढ़ में एक-एक कोरोना केस कम हुए हैं। 24 घंटों में संक्रमण के केस घटने के बाद केरल में अब कुल सक्रिय केस 1309 बचे हैं। गुजरात में अभी 1046 सक्रिय केस हैं। वहीं कर्नाटक में 466, महाराष्ट्र में 443, उत्तर प्रदेश में 257, राजस्थान में 219, तमिलनाडु में 187 और हरियाणा में 106 लोग अभी कोविड से संक्रमित हैं।

चार राज्यों की 5 सीटों पर वोटिंग जारी, केजरीवाल-ममता दीदी के सामने चुनौती

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात और पंजाब की पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इन उपचुनावों को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ा लिस्टमन टेस्ट माना जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस और माकपा जहां पश्चिम बंगाल और केरल में अपनी सत्ता को और मजबूत करने की कोशिश में हैं, वहीं भाजपा और आम आदमी पार्टी गुजरात और पंजाब में अपनी सीटें बचाने के लिए जोर लगा रही हैं। इन चुनावों के नतीजे 23 जून को आगरे और सभी की नजरे इस बात पर टिकी हैं कि क्या ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता अपनी फकड़ बरकरार रख पाएंगे।



पश्चिम बंगाल के कालिंज में उपचुनाव टीएमसी विधायक नासिरुद्दीन अहमद की मृत्यु के बाद हो रहा है। टीएमसी ने उनकी बेटी अलिफा अहमद को उम्मीदवार बनाया है, ताकि महिला और अल्पसंख्यक वोटों को अपने पक्ष में किया जा सके। भाजपा ने स्थानीय कार्यकर्ता आशीष घोष को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस-सीपीआई (एम) गठबंधन ने कबील उद्दीन शेख को चुना है। केरल के नीलंबूर में उपचुनाव माकपा समर्थित निर्दलीय विधायक पीबी अनवर के इस्तीफे के बाद हो रहा है, जिन्होंने मुख्यमंत्री पिनारayi विजयन से मतभेद के बाद पार्टी छोड़ दी थी। माकपा ने एम स्वराज को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने पुराने नेता अर्चनांद शोक्त को उतारा है। गुजरात की दो सीटों विसावदर और कड़वी

पर उपचुनाव हो रहे हैं। विसावदर सीट आप विधायक भूपेंद्र ध्यानी के इस्तीफे और भाजपा में शामिल होने के बाद खाली हुई थी। भाजपा ने किरीट पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जो सहायरी नेता और पूर्व जिला पार्टी अध्यक्ष हैं। पंजाब के लुधियाना (पश्चिम) में उपचुनाव आप विधायक गुरदीप बसी गोगी की मृत्यु के बाद हो रहा है। आप ने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार बनाया है, जो इस शहर की सीट को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस के भारत भूषण आशु, भाजपा के जीवन गुप्ता और शिरोमणि अकाली दल के परफुर सिंह घुमन मैदान में हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगतवंत मान, अरविंद केजरीवाल और आतिथी ने आप के लिए जमकर प्रचार किया, जबकि भाजपा ने दिव्से और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों रेखा गुप्ता और नायब सिंह सैनी को उतारा।

बजाज आलियांज लाइफ महिला टर्म सर्वेक्षण 2025 टर्म इश्योरेंस के अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित मानती हैं महिलाएं

रांची (एजेंसी)। भारत की अग्रणी निजी जीवन बीमा कंपनियों में से एक, बजाज आलियांज लाइफ इश्योरेंस ने पिकिसस ग्लोबल और व्वालुम.एआई के सहयोग से अपने नवीनतम अध्ययन, बजाज आलियांज लाइफ वूमैन टर्म सर्वे (बजाज आलियांज लाइफ महिला टर्म सर्वेक्षण) से उल्लेखनीय निष्कर्ष प्रस्तुत किए। इस सर्वेक्षण में मेट्रो, टियर-1 और टियर-2 शहरों में 1,000 से अधिक वयस्क महिलाओं और स्वरोजगार वाली महिलाओं को शामिल करते हुए गुणात्मक और मात्रात्मक पद्धतियों का संयोजन किया गया। इसके तहत उनकी शीर्ष वित्तीय प्राथमिकताओं, आपात

स्थितियों के लिए तैयारी और दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा के दृष्टिकोण का आकलन किया गया। सर्वेक्षण वित्तीय प्राथमिकताओं में एक महत्वपूर्ण बदलाव को उजागर करता है - जिसमें बच्चों का भविष्य, शिक्षा व्यय और स्वास्थ्य शीर्ष चिंताओं के रूप में सामने आते हैं। टर्म इश्योरेंस महिलाओं के लिए अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पसंदीदा वित्तीय उत्पाद के रूप में उभरा है। 53% महिलाओं ने अपने परिवार की बचत को प्रभावित करने वाले अप्रत्याशित स्वास्थ्य खर्चों के बारे में चिंता व्यक्त की, जो स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों के बारे में बढ़ती

जागरूकता को दर्शाता है। इसके अलावा 87% ने गंभीर बीमारी कवर को अत्यधिक आकर्षक पाया, और 50% ने अपने टर्म प्लान में अंतर्निहित स्वास्थ्य प्रबंधन सेवाओं को एक आवश्यक विशेषता माना। इसके अतिरिक्त, महिलाएं टर्म प्लान में बच्चों की शिक्षा से जुड़े लाभों को भी एक आवश्यक हिस्सा मानती हैं। ये निष्कर्ष इस बात को रेखांकित करते हैं कि आज आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाएं ऐसे बीमा की तलाश कर रही हैं जो न केवल जीवन की रक्षा करता हो बल्कि दीर्घकालिक स्वास्थ्य और परिवार की भलाई का भी समर्थन करता हो।

अब एयरपोर्ट के आसपास ऊंची इमारतों पर होगी कार्रवाई, डीजीसीए ने उठाया कदम

-अधिकारियों को ढांचे को गिराने या ऊंचाई कम करने का होगा अधिकार

नई दिल्ली (एजेंसी)। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान दुर्घटना के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय (डीजीसीए) ने एक अहम कदम उठाया है। मंत्रालय ने विमान सुरक्षा में जोरिष्ठ पैदा करने वाली भौतिक संरचनाओं पर नियंत्रण को कड़ा करने के लिए एनएसई और निरमण जारी किए हैं। बता दें 12 जून को अहमदाबाद से लंदन का रहा विमान उड़ान भरते ही कुछ दूरी पर जाकर विमान बीजे मैडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराया और उसमें आग लग गई। इस दुर्घटना में विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद अब केंद्र सरकार कड़े कदम उठा रही है।

मसौदा नियमों के तहत यदि कोई इमारत तय ऊंचाई से ज्यादा है तो संबंधित क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी की ओर से उसे नोटिस जारी किया जाएगा। संपत्ति मालिक को 60 दिनों के अंदर सखट प्लान और ढांचे की माप संकेत अनिवार्य प्रस्तुत करने होंगे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो अधिकारियों को ढांचे को गिराने या ऊंचाई कम करने की कार्रवाई का अधिकार होगा। यदि डीजीसीए या कोई अधिकृत अधिकारी किसी ढांचे को नियमों का उल्लंघन मानता है तो वो इसे हटाने या कम करने का आदेश जारी कर सकता है। मालिक को पालन करने के लिए 60 दिन का समय दिया जाएगा, जो उचित कारणों पर और 60 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा अधिकारियों को दिन के समय स्थल का निरीक्षण करने की इजाजत होगी, वस्तुतः वह संपत्ति मालिक को पहले से सूचित करें। अगर संपत्ति मालिक सहयोग नहीं करता तो अधिकारी जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई कर सकते हैं और मामला डीजीसीए को भेज सकते हैं।

मसौदा नियमों के तहत यदि किसी ढांचे को हटाने या कम करने का आदेश दिया जाता है तो संपत्ति मालिक पहले या दूसरे अपीलवी अधिकारी के सामने तय फॉर्म, जरूरी दस्तावेज और एक हजार रुपए शुल्क के साथ अपील कर सकते हैं। इसमें मुआवजे की शर्तें भी रखी गई हैं। सिर्फ वह मालिक जिन्हें अधिकारिक आदेशों के मुताबिक ढांचे को गिराने या संशोधित करने के लिए कहा गया है और जिन्होंने आदेश का पालन किया है, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। अधिसूचना की तिथि के बाद नियमों का उल्लंघन कर बनाए गए किसी भी ढांचे को मुआवजा नहीं मिलेगा। डीजीसीए ने इन मसौदा नियमों पर प्रकाशन के 20 दिनों के अंदर जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।

